

ॐ

-3C7M0F-

जीव के एक मात्र चराचर गुरु - मातृ - पितृ चरण कमलेभ्यो नमः ॥

मेरा आदि गुरु विश्व है, फिर संसार में ऐसा कौन है जो श्री सत्यनारायण के चत कथा से अनभिज्ञ है। परन्तु बहुधा लोग शंका करते हैं कि, जो कथा लोक में प्रचलित है उसमें केवल पूजन करने वालों का वर्णन है, न कि श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का। आज वही सत्तासी अर्जुनी वर्ष पूर्व की एक पुस्तक जिसमें भगवान सत्यनारायण की कथा थी। जनमानस के समक्ष हिन्दी टीका सहित प्रकाशित करने का जो उत्साह इस दया के पात्र को प्रभू विश्व भगवान और विष्णु भगवान ने अर्तभन में अकिंचन को दिया है उसमें आशीवाद के रूप में हमारे श्री गिरिजा शंकर शास्त्री (बिसवां सीतापुर) का भी रहा है आप को धरोहर आप के पास भेज रहा हूँ। यदि कोई गलती या त्रुटि इस पुस्तक में हो तो अपना बालक जानकर क्षमा कर देना। जो सत्य है, वही नारायण है, जो नारायण है वही सत्य है यही सत्यनारायण है। जो वैश्य और ब्राह्मण ने कथा सुनी थी यह वही सत्यनारायण की कथा है आप की धरोहर आप के पास लाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन की कमी ने बहुमत शक्योरा। फिर श्री आत्मायु से विशोर मन केवल शांति चाहता है। आप के चरणारविन्दु में नतमस्तक होकर क्षमा चाहता हूँ। यदि भूल हो तो 'संतान के सौ अपराध पिता के पास क्षम्य होते हैं' माता क्षमा में सागर के समान होती है। इस दृष्टि से अपराध क्षमा कर आशीवाद दीजिए कि आप के सेवक को आप का आशीवाद मिल सके। और उन्हीं नारायण 'नकि जिनका सागर (श्री सागर) ही धर है। अन्त में अब उनके श्री विश्व में ही लीन हो जाऊँ। श्री देवदत्त महाराज माता श्रीगंगा की जय ॥

चरण सेवक

कार्तिक पूर्णिमा २००५

डॉ० योगि राज (वंश योगी)

(9)

श्रीगणेशायनमः ॥ आकृष्णेनरजसावर्तमानोनिवेशयन्नमृतं मर्त्यं च ॥ हिरण्ययेनसवितारथेनादेवोयातिभुवनानिपश्यन् ॥
१ ॥ सूर्यायनमः ॥ सूर्यभावाहयामि ॥ गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि ॥ एवंसर्वत्र ॥ इमंदेवाअसपत्नगवंसुवध्वं महतेक्षेत्रायमहते
ज्यैष्ठ्यायमहतेज्यानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय ॥ इममुष्यपुत्रममुष्यैपुत्रमस्यैविशाण्वोमीराजासोमोऽस्माकं ब्राह्मणानाग्वंराजा ॥ २ ॥
चन्द्रायनमः ॥ अग्निमूर्द्धादिवः ककुत्पतिः पृथिव्याअयम् ॥ अपाग्वंरेताग्वंसिजिन्वति ॥ ३ ॥ भौमायनमः ॥ उद्
बुधस्वाग्ने प्रतिजागृह्णित्वभिष्ट्यापूर्तसगवंसुजेधामयंच ॥ अस्मिन्त्सधस्येअध्युत्तरस्मिन्विश्वेदेवायजमानश्चसीदत ॥ ४ ॥
बुधायनमः ॥ बृहस्पते अतियदयोआर्हाद्युमद्विभातिक्रतुमज्जनेषु ॥ यद्दीदयच्छवसऋतप्रजातदस्मासुद्र विणंधेहिचित्रम्
॥ ५ ॥ बृहस्पतयेनमः ॥ अन्नात्परिसुतोरसं ब्रह्मणाव्यपिवत्क्षत्रं पयः ॥ सोमंप्रजापतिमृतेनसत्यमिन्द्रियं विपानगवंशुक
मन्धसइन्द्रस्येन्द्रियमिदम्पयोऽमृतंमधु ॥ शुक्रायनमः ॥ शन्नोदेवीरभिष्टयआपोभवन्तुपीतये ॥ शंध्योरभिस्रवन्तुनः ॥ ७ ॥
शनैश्चरायनमः ॥ कथानश्चित्र आभूवदूतीसदावृधःसखा ॥ कथाशचिष्ठयावृता ॥ ८ ॥ राहवेनमः ॥
केतुकृणवन्नकेतवेपेशोमर्या जपेशसे ॥ समुषदिभरजायथाः ॥ ९ ॥ केतवेनमः ॥ गणानांत्वा इत्यनेन गणेशमूजयेत् ॥ १० ॥
ब्रह्मजज्ञानंप्रथमंपुरस्ताद्विसीमतः सुखचोवेनआवः ॥ सबुध्याउपमाअस्यविष्ठाः सतश्चयोनिमसतश्चविवः ॥ ब्रह्मणो नमः
॥ ११ ॥ विष्णोरराटमसविष्णोः शनप्रेस्थोविष्णोः स्यूरसिविष्णो ध्रुवोसि ॥ वैष्णवमसिविष्णवेत्वा ॥ १२ ॥ विष्णवेनमः ॥
नमः शम्भवायच मयोभवायच ॥ नमः शंङ्करायच मयस्करायच नमः शिवाय च शिवतरायच ॥ १३ ॥ शिवायनमः ॥
श्रीश्वतेलक्ष्मीश्चपत्यावहेरान्रेपाश्वेनक्ष त्राणिरूपगशिवनौव्यात्तम् ॥ इष्णनिषाणामुंइषाणसर्वलोकं मइषाण ॥ लक्ष्म्यै नमः ॥
१४ ॥ अथसत्यनारायणपूजाविधिः ॥ व्रती संक्रान्तौषोर्णामार्यां वैकादश्यां यस्मिन्कस्मिन्दिनेवासायंकाले स्नानं कृत्वा ॥

पूजास्थानमागत्य आसन उपविश्या च भ्यपिवत्रधारणं कृत्वा गणेशगौरीवस्त्रणदेवतानां प्रतिष्ठावाहने कृत्वा संकल्पं कुर्यात् ।।
 अद्येत्यादि अमुकगोत्रोऽमुकशर्माहं सकलदुरितोपशमनसर्वापच्छांतिपूर्वकसकलमनोरथासिद्ध्यर्थं
 यथासंपादितसामग्रया गणेशगौरीवस्त्रणदेवतागणपत्यादिपञ्चलो-कपालदेवतासूर्यादिनवग्रहदेवतापूजनपूर्वक
 श्रीसत्यनारायणपूजनं कथाश्रवणं च करिष्ये ।। गणेशादिभ्यो नमः ।। अर्घ्यपाद्याचमनीयस्नानगन्धाक्षत-
 पुष्पधूपदीप-नैवेद्याचमनीयमुखवासताम्बूल-पुंगीफल-द्रव्याणि ततन्मन्त्रैः समर्पयामि ।। एवं सूर्यादिग्रहाणां ततन्मन्त्रैः
 पूजनं कुर्यात् ।। अथ स्मृत्या जानात्याणपूजाप्रकारमाह ।। पुष्पगृहीत्वा ध्यानं कुर्यात् ।। ध्यायेत्सत्यगुणातीत
 गुणत्रयसमन्वितम् ।। लोकनाथत्रिलोकेशं कौस्तुभाभरणं हरिम् ।। ११९ ।। नीलवर्णं पीतवस्त्रं श्रीवत्सपदभूषितम् ।।
 गोविन्दं गोकुलानन्द ब्रह्माद्यैरपि पूजितम् ।। १२० ।। इति ध्यानम् ।। आगच्छागच्छ देवेश तेजोराशे जगत्पते ।।
 क्रियमाणं मया पूजां गृहाण सुरसत्तम ।। ३ ।। इत्यावाहनम् ।। नानारत्नसमायुक्तं कार्त्तस्वरविभूषितम् ।। आसनं देवदेवेश
 प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम् ।। ४ ।। इत्यासनम् ।। नारायणनमस्तेस्तु नरकार्णव तारक ।। पाद्यं गृहाण देवेश ममसौख्यं विविधय ।। ५ ।।
 इति पाद्यम् ।। व्यक्ताव्यक्तस्वरूपाय हृषीकपतये नमः ।। मयानिवेदितो भक्तया अर्घोयं प्रतिगृह्यताम् ।। ६ ।।
 इत्यर्घ्यम् ।। मन्दाकिन्यास्तु यद्धारि सर्वपापहरं शुभम् ।। तदिदं कल्पितं देव सभ्यगाचम्यतां त्वया ।। ७ ।। इत्याचमनम् ।।
 स्नानं पञ्चामृतैर्देवगृहाण पुरुषोत्तम ।। अनाथनाथ सर्वज्ञगीर्वाणप्रणतिप्रिय ।। ८ ।। इति स्नानम् ।। वेदसूक्तसमायुक्ते
 यज्ञसामसमन्विते ।। सर्ववर्णप्रदेवे वाससी प्रतिगृह्यताम् ।। ९ ।। इति वस्त्रम् ।। ब्रह्माविष्णुभ्रह्मेशेन निर्मितं ब्रह्मसूत्रकम् ।।
 यज्ञोपवीतदानेन प्रीयतां कमलापतिः ।। १० ।। इति यज्ञोपवीतम् ।। श्रीखंडं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम् ।।

विलेपनं सुरश्रेष्ठचन्दनं प्रतिगृह्यताम् ।। ११९ ।। इतिचन्दनम् ।। मल्लिकादिमुगन्धीनिमालत्यादीनिवैप्रभो ।।
 प्रयाहत्तानिपूजार्थपुष्पाणिप्रतिगृह्यताम् ।। १२० ।। इतिपुष्पाणि ।। वनस्पतिरसोद्भूतोगन्धाद्योगन्धउत्तमः ।। आधेयः
 सर्वदेवानांधूपेयप्रतिगृह्यताम् ।। १२१ ।। इतिधूपम् ।। साज्यंचवर्तिसंयुक्तवह्निना योजितंमया ।। दीपग्रहाणदेवेश
 त्रैलोक्यतिमिरापह ।। १२२ ।। इतिदीपम् ।। द्युत्पक्वं हविष्याननं पायसं चसशार्करम् ।। नानाविधान्न
 नैवेद्यविष्णोमेप्रतिगृह्यताम् ।। १२३ ।। इतिनैवेद्यम् ।। सर्वपापहरदिव्यं गार्ह्यनिर्मलंजलम् ।। आचमनं मयादत्तंगृह्यतांपुरुषोत्तम
 ।। १२४ ।। इतिआचमनम् ।। लवङ्गकर्पूरयुतन्ताम्बूलंसुरपणितम् ।। प्रीत्यागृहाणदेवेशममसौख्यंविबर्द्धय ।। १२५ ।।
 इतिताम्बूलम् ।। इदंफलं मयादेवस्थापितं पुरतस्तव ।। तेनमेसुफलावाप्तिर्भवेज्जन्मनिजन्मनि ।। १२६ ।। इतिफलम् ।।
 चतुर्वर्तिसमायुक्तं धृतेनचसुपूरितम् ।। नीराजनेनसंतुष्टोभवत्येवजगत्पतिः ।। १२७ ।। इतिनीराजनम् ।। यानिका
 निचपापानिजन्मान्तरकृतानिच ।। तानितानिविन्शयन्ति प्रदक्षिणपदेपदे ।। १२८ ।। इतिप्रदक्षिणा ।। ततःपुष्पाञ्जलिं
 नमस्कारांश्चकृत्वा स्तुवीत ।। यन्मयाभक्ति युक्तेनपत्रंपुष्पंफलंजलम् ।। निवेदितञ्च नैवेद्यं तद्ग्रहाणानुकम्पया ।। १२९ ।।
 गन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन ।। यत्पूजितं मयादेवपरिपूर्णात्तदस्तुमे ।। १३० ।। अमोघंपुण्डरीकाक्षंनुसिंह
 दैत्यसूदनम् ।। हृषीकेशं जगन्नाथांवागीशं वरदायकम् ।। १३१ ।। गुणत्रयगुणातीतं गोविन्दगरुड एवजम् ।।
 जनार्दनं जनातीतं जानककीवल्लभं हरिम् ।। १३२ ।। प्रणामागिसदाभक्त्यानारायणमतः परम् ।। दुर्गमेविषमेघोरे
 शशुभिः परिपीडिते ।। १३३ ।। निस्तारयस्वसर्वेषु तथानिष्टभयेषु च ।। नामान्येतानिसंकीर्त्य ईप्सितं फलमाप्नुयात् ।। १३४ ।।
 सत्यनारायणं देवं वन्देहं कामदं प्रभुम् ।। लीलयाविततं विश्वं येन तस्मै नमो नमः ।। १३५ ।। इति प्रार्थना ।।

श्रीसत्यनारायण-व्रत-कथा-पंचाख्यायी

भाषाटीका-सहित

अथ प्रथमोऽध्यायः (1)

व्यास उवाच-एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः । पप्रच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिक
खलु ॥१९॥ ऋषय ऊचुः । व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलम् । तत्सर्वं श्रोतुंमिच्छामि
कथयस्व महामुने ॥ २॥ सूत उवाच-नारदेनैव संपृष्टौ भगवान् कमलापतिः । सुरर्षये यथैवाह
तच्छृणुध्वं समाहिताः ॥ ३॥ एकदा नारदो योगी परानुग्रहकाक्षया । पर्यटन् विविधान् लोकान्
मर्त्यलोकमुपागतः ॥४॥ ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नानाक्लेशसमन्वितान् । नानायोनिसमुत्पन्नान्
क्लिश्यमानान् स्वकर्मभिः ॥ ५॥ केनोपायेन चैतेषां दुःखनाशो भवेद् ध्रुवम् । इति सच्चिदत्य मनसा
व्यासजी ने कहा-एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि (८८०००) समस्त ऋषियों ने पुराणवेत्ता सूतजी से
पूछा ॥१९॥ जिस व्रत या तप से अपना अभीष्ट फल प्राप्त हो उसे सुनने की इच्छा है, हे महर्षे! आप कहिये ॥२॥
सूतजी ने कहा-इसी प्रकार एक समय नारदजी ने भी लक्ष्मीपति भगवान् विष्णु से पूछा था, जिस प्रकार भगवान् विष्णु
ने देवर्षि नारदजी से कहा था, उसे मन लगाकर सुनिये ॥३॥ एक समय योगी नारद दूसरों पर कृपा करने की कामना
से अनेक लोकों में विचरते हुए पृथुलोक में आये ॥४॥ यहाँ आकर अनेक योनियों में उत्पन्न सब प्राणियों को विविध प्रकार
के क्लेशों से दुःखी और स्वकीय कर्मों से क्लेशित देखकर ॥५॥ इन प्राणियों का दुःख किस तरह नाश हो. ऐसा

विष्णुलोकं गतस्तदा ॥ ६ ॥ तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजम् । शंङ्खचक्रगदापद्मवनमाला
विभूषितम् ॥ ७ ॥ दृष्ट्वा तं देवदेवशं स्तोतुं समुपचक्रमे । नारद उवाच-नमोवाङ्मनसातीतरूपाया
नन्तशक्तये ॥ ८ ॥ आदिमध्यान्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने । सवेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने ॥
९ ॥ श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुर्नारदं प्रत्यभाषत । श्रीभगवानुवाच-किमर्थमागतो ऽसि त्वं किं ते मनसि
वर्तते ॥ १० ॥ कथयस्व महाभागः तत्सर्वकथयामिः ते । नारद उवाच-मर्त्यलोके जनाः सर्वे
नानाक्लेशसमन्विताः । नानायोनिसमुत्पन्नाः पच्यन्ते पापकर्मभिः ॥ ११ ॥ तत्कथं शमयेन्नाथ लघूपायेन
तद्वद । श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपास्ति यदि ते मयि ॥ १२ ॥ श्रीभगवानुवाच-साधु पृष्टं त्वया वत्स

मन में विचार कर तत्काल विष्णुलोक चले गये ॥ ६ ॥ वहाँ श्वेतवर्ण, चतुर्भुज, शंख, चक्र, गदा, पद्म, तथा वनमाला से
अलंकृत देवाधिदेव भगवान् श्रीविष्णु को देखकर स्तुति के लिए उद्यत हुए । नारदजी ने कहा-वाणी और मन से अगोचर
रूप, अमित शक्तिवाले मध्य तथा अन्त रहित । रजोगुणादि से रहित, गुणों को उत्पन्न करने वाले अखिल सृष्टि के
आदिभूत तथा भक्तों का दुःख विनाश करने वाले आपको नमस्कार है ॥ ७-९ ॥ भगवान् विष्णु ने स्तुति सुन कर
नारदजी से कहा-हे नारद! आप क्यों आये और आपके मन में क्या है ॥ १० ॥ हे महा भाग, आप अपना मनोरथ
कहिये, मैं उन सबका उत्तर दूँगा । नारदजी ने कहा-मृत्युलोक में सम्पूर्ण प्राणी अनेकानेक गोनियों में उत्पन्न हुए अपने
पाप कर्मों से दुःखी हो रहे हैं ॥ ११ ॥ हे स्वामी! यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा हो तो बतलावें, उनका दुःख कैसे दूर
हो ॥ १२ ॥ श्री भगवान् ने कहा-हे नारद! आपने संसार पर कृपा करने की कामना से उत्तम बात पूछी है, जिस उपाय

लोकानुग्रहकांक्षया । यत्कृत्वा मुच्यते मोहात्तच्छृणुष्व वदामि ते ॥ १३ ॥ व्रतमस्ति महत्पुण्यं स्वर्गो
मर्त्ये च दुर्लभम् । तव स्नेहान्मया वत्स प्रकाशः क्रियतेऽधुना ॥ १४ ॥ सत्यनारायणस्यैव व्रतं
सम्प्राविधानतः । कृत्वा सद्यः सुखः भुक्त्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात् ॥ १५ ॥ तच्छ्रुत्वा भगवाद्वाक्यं
नारदो मुनिरब्रवीत् । नारद उवाच-किं फलं किं विधानं च कृतं केनैव तद्ब्रतम् ॥ १६ ॥ तत्सर्वं
विस्तराद् ब्रूहि कदा कार्यं हि तद्ब्रतम् । दुःखशोकादिशमनं धनधान्यप्रवर्धनम् ॥ १७ ॥ सौभाग्यसन्ततिकरं
सर्वत्र विजयप्रदम् । यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्तिश्रद्धासमन्वितः ॥ १८ ॥ सत्यनारायणं देवं
यजेच्चैव निशामुखे । ब्राह्मणैर्बान्धवैश्चैव सहितो धर्मतत्परः ॥ १९ ॥ नैवेद्यं भक्तितो दद्यात्सपादं
भक्तिसंयुतम् । रम्भाफलं घृतं क्षीरं गोधूमस्य च चूर्णकम् ॥ २० ॥ अभावे शालिचूर्णं वा शर्करा च
से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं, वह सुनें मैं कहता हूँ ॥ १३ ॥ प्रभूत पुण्य को देने वाला, स्वर्ग तथा मर्त्यलोक में
परम दुर्लभ व्रत है, मैं आपके स्नेह से उस व्रत को प्रकट करता हूँ ॥ १४ ॥ सत्यनारायण व्रत को विधिपूर्वक करने से
प्राणी इस लोक में सुख भोग मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥ १५ ॥ भगवान् के ऐसे वचन सुन कर नारद मुनि ने कहा-हे
भगवान्! उस व्रत का फल और विधान क्या है? उस व्रत को किसने किया? ॥ १६ ॥ व्रत को किस दिन करना चाहिए?
उसकी सारी विधि विस्तार से कहें । श्रीभगवान् ने कहा-वह दुःख और क्लेश को शान्त करने वाला, धन और धान्य
को बढ़ाने वाला ॥ १७ ॥ सौभाग्य और सन्तति तथा सर्वत्र विजय देने वाला है तथा किसी भी दिन मनुष्य के मन में
भक्तिश्रद्धा हो ॥ १८ ॥ उसी दिन सन्ध्या समय सत्यनारायण की पूजा करें । विप्र और बन्धु-बान्धवों सहित धर्म में तत्पर
हो ॥ १९ ॥ सावाया नैवेद्य प्रसाद भक्ति से अर्पण करे । केला, फल, धी, दूध, गेहूँ का चूर्ण लें ॥ २० ॥ गेहूँ के चूर्ण के

गुडं तथा । सपादं सर्वभक्ष्याणि चैकीकृत्य निवेदयेत् ॥२१॥ विप्राय दक्षिणां - द्यात् कथां श्रुत्वा जनैः सह । ततश्च बन्धुभिः सार्धं विप्रांश्च प्रति भोजयेत् ॥ २२ ॥ प्रसादं भक्षयेद्धक्त्या नृत्यगीतादिकं चरेत् । ततश्च स्वगृहं गच्छेत्सत्यनारायणं स्मरन् ॥ २३ ॥ एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छासिद्धिर्भवेद् ध्रुवम् । विशेषतः कलियुगे लघूपायो ऽस्ति भूतले ॥ २४ ॥ नारद उवाच-का कथा श्रुयते देव! कश्चाश्चमूर्तेश्च पूजनम् । ब्रूहि मे कर्णसिन्धो । सत्य नारायणव्रते ॥ २५ ॥ भगवानुवाच-शृणुविप्र । महाभागःयन्मानन्दं परिपृच्छसि ॥ धरणीवराहाख्यानम् निबोधगदतोमम ॥ २६ ॥

इति श्री सत्यनारायणोपदेश - कथायां प्रथमोध्यायः ।

अभाव में साठी (चावल) का चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़ लेना चाहिए । सम्पूर्ण प्रसाद भक्तिभाव से एकत्र कर भगवान् को भोगलगा दे ॥२१॥ जन-समुदाय सहित कथा श्रवण कर ब्राह्मण को दक्षिणा दें । तदनन्तर बन्धु-बान्धवों सहित ब्रह्मण को भोजन करावें ॥२२॥ भक्ति से स्वयं प्रसाद भक्षण करें और नृत्य, गीतादि गाते हुए रात्रि में जागरण करें । तदनन्तर भगवान् सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ अपने घर जाय ॥२३॥ इस प्रकार का आचरण करने से निश्चय ही मनुष्यों की इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं । विशेषकर कलिकाल में यह छोटा सा उपाय है ॥२४॥ नारदजी ने कहा! हे देव किस कथा को सुनना चाहिए, किसकी मूर्ति की पूजा करनी चाहिए! हे कर्ण के सत्यनारायण के व्रत को बतलाइये । भगवान् बोलते-हे विप्र-परम भाग्यवान्! तुमने मुझसे जो पूछा है उस धरणी वराह संवाद को कहता हूँ । इति श्री सत्यनारायणोपदेश कथायां प्रथमोध्यायः ॥



अथ द्वितीयोऽध्यायः

अथ सत्यनारायण कथा प्रारम्भ - वराह भगवान् उवाच-शृणुतत्वेनमे देवि । यन्मान्त्व परिपृच्छसि ।। कथयिष्यामि ते गुह्यंम शालग्रामिनि स्मृतम् ।। १९ ।। तस्मिन्क्षेत्रे हरोदेवि । मत्स्वरूपेण संयुतः ।। शालग्रामेगिरौ तस्मिच्छला रूपेण तिष्ठति ।। २० ।। अहन्तिष्ठासि तत्रैव गिरिस्वरूपेण नित्यशः ।। तस्मिन्स्थिताः समग्रास्तु मत्स्वरूपा न संशयः ।। तयोः पर्वतयोर्थावैशिला विश्णुशिवाभिद्या ।। २१ ।। लिङ्गरूपेण च हरस्तत्रदेवालयगिरौ ।। शिवनाभाः शिलास्तत्र चक्रनाभास्तथा शिलाः ।। २२ ।। रेवयाच कृतं तत्र तपः शिवसुतुष्टिदम् ।। ममत्वत्सदृशः पुत्रो भूयादिति विभूतया ।। २३ ।। अहङ्कस्यापि न सुतः किंकरिष्यामि चिन्तयन् ।। रेवायास्तुवरोदेयस्त्ववश्यं गिरिजापतिः ।। निश्चित्यैवं तदेवावाच

वराह भगवान बोले-हे देवि (धरणी)! इसको तत्व से सुनो । जो तुमने मुझसे पूछा है । 'शालग्राम' (मुक्तिनाथ) के नाम से मेरा एक परमप्रिय एवं प्रसिद्ध स्थान है ।। १९ ।। जहाँ मैं शालग्राम-शिला रूप में विराजता हूँ ।। २० ।। वहाँ पर मैं पर्वत के रूप में सदा निवास करता हूँ । वहाँ की चक्रांकित सब शिलायें मेरा ही स्वरूप हैं । इन दोनों पर्वतों से सम्बन्ध रखने वाली शिलाएँ भी 'विष्णु शिला' एवं "शिव शिला" के नाम से प्रसिद्ध हैं ।। २१ ।। वहाँ पर भगवान शंकर (सोमेश्वर लिंग) लिंग रूप से विराजमान हैं । ये शिलाएँ भी "विष्णु शिला" तथा "शिव शिला" के नाम से प्रसिद्ध हैं ।। २२ ।। पूर्व समय में रेवा ने भी मेरी (शिव) की तपस्या की थी ; उसके मन में यह इच्छा थी कि मुझे (शिव) के सम्भव पुत्र चाहिए ।। २३ ।। मैंने सोचा कि मैं तो किसी का पुत्र नहीं हूँ, फिर अब क्या कहूँ-गिरिजापति भक्तवश होकर बहुत शीघ्र विचार कर निश्चित हो अन्तरात्मा से बोले ।। २४ ।। हे देवी रेवा तुमने मेरी अपार शक्ति की है । अतः मैं पुत्र बनकर मर्षेश

प्रसन्नान्तरात्मना ॥ ६ ॥ लिङ्गस्वर्णतेदेवि! गजानन पुरस्कृतः ॥ गर्भतववसिष्यामिपुत्रोभूत्वा शिवप्रिये ॥
 ७ ॥ ममत्वमपरामूर्तिः ख्याताजलमयीशिवा ॥ शिवशक्तिविभेदेन आवामेकत्र संस्थितौ ॥ ८ ॥ एवं
 दत्तवरा रेवामत्सामिन्निध्यामिहागता ॥ रेवाखण्डमितिख्यातं ततः प्रभृति हे धरे! ॥ ९ ॥ गण्डक्यापि
 पुरातप्तं वर्षाणामयुतं धरे! ॥ दिव्यवर्षशतं तेषे विष्णुं चिन्तयती तदा ॥ १० ॥ ततः साक्षाज्जगन्नाथो
 हरिर्भक्तजनप्रियः ॥ उवाचमधुरं वाक्यं प्रीतः प्रणतवत्सलः ॥ ११ ॥ गण्डकी त्वां प्रसन्नो ऽस्मितपसा
 विस्मितो ऽनघे! ॥ किं देयन्तद्वदस्वाशु प्रीतो ऽस्मि वरवर्णिनि ॥ १२ ॥ गण्डक्यापि तदाद्दृष्ट्वा शंखचक्रगदा-
 धरम् ॥ प्राञ्जलिः प्रणताभूत्वा मधुरं वाक्यमब्रवीत् ॥ १३ ॥ गण्डकी उवाच । यदि देव प्रसन्नो ऽस्मिदेयोमे
 के सहित लिंग रूप से तुम्हारे गर्भ में (तलहठी **The Bed**) में निवास करूँगा ॥ १७ ॥ और मेरी दूसरी मूर्ति हे देवी
 जल मयी नाम से प्रसिद्ध होगी । शिव शक्ति के भेद से रहित हम दोनों एक ही स्थान पर निवास करेंगे ॥ १८ ॥ इस प्रकार
 रेवा ने मेरा सामिन्ध प्राप्त कर लिया और यहाँ आ गई । तब से इसकी भी “रेखा खण्ड” नाम से प्रसिद्धि हुई ॥ १९ ॥
 गण्डकी भी मुखे पत्ते धाकर तथा वायु पीकर देवताओं के वर्ष से सौ वर्ष तक तपस्या करती रही! उस समय वह सदा
 विष्णु का ही चिन्तन करती थी ॥ १९० ॥ अन्त में जगत के स्वामी श्री हरि वहाँ स्वयं पधारे, और बोले-हे पुण्यमयी गण्डकी
 मैं तुम पर प्रसन्न हूँ ॥ १९१ ॥ हे पापहरनी गण्डकी तुम्हारी तपस्या से मैं विस्मित हूँ! हे सुव्रते तुम मुझसे वर माँगे कौन
 सा वरदान दूँ ॥ १९२ ॥ इसके पूर्व भी गण्डकी को एक बार शंखचक्र गदाधारी भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ था ॥ १९३ ॥ फिर
 इन प्रभु की बात सुनकर गण्डकी ने उनके सामने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक मधुर वचनों में कहा-भगवन! यदि आप मुझ
 पर प्रसन्न हैं, तो मुझे आर्थाभिपत्त वर देने की कृपा कीजिए । मैं चाहती हूँ कि आप मेरे गर्भ में आकर निवास करें ॥ १९४ ॥

वाञ्छितोवरः ।। ममगर्भगतो भूत्वा विष्णोः।मत्पुत्रताम्ब्रज ।। १४ ।। भगवानुवाच ।। शालग्रामशिलास्त्री
 तव गर्भगतः सदा ।। स्थास्यामि तव पुत्रत्वे भक्तानुग्रहकारणात् ।। १५ ।। मत्सान्निधानदीनान्त्वम-
 तिश्रेष्ठाभविष्यसि हरिष्यसि महापापं वाङ्मनः कायसम्भवम् ।। १६ ।। वराहभगवान् उवाच। एवं
 दत्त्वावरान्देव्यै तत्रैवान्तर्दधेहरिः ।। त्रिवेणी क्षेत्रमाहात्म्यतन्निबोध वसुन्धरे! ।। यत्रस्थितं महालिङ्ग
 त्रिजलेश्वरं संज्ञितम् ।। १७ ।। देविकानाम् देवानाम्प्रभावान् च तपस्यताम् ।। नियमार्थं समुद्धृता
 गण्डक्याभिलिता शुभाः ।। १८ ।। आश्रमादपरा चासीत्पुलस्त्यपुलहाश्रमात् ।। गण्डक्या मिलितासापि
 त्रिवेणी गण्डकीत्यभूत् ।। १९ ।। धरण्युवाच ।। प्रयागे वा त्रिवेणीति यत्र देवोमहेश्वरः ।। शूलटङ्क
 इति, ख्यातः सोमेश इति चापर ।। २० ।। वेणीमाधवनान्नाऽपि यत्र विष्णुः स्वयंस्थितः ।। गङ्गा च
 अतः वे प्रसन्नता पूर्वक बोले-देवि! मैं शालग्राम शिला का रूप धारण कर तुम्हारे (गर्भ The Bed) में निवास करूँगा
 और भक्तों पर कृपा करने के लिए मैं तुम्हारे पुत्र रूप में स्थापित रहूँगा ।। १५ ।। और मेरे गान्धिव्य के कारण तुम नदियों
 में श्रेष्ठ मानी जाओगी! तुम्हारे दर्शन, स्पर्श, पान, तथा अवगाहन करने से मनुष्यों के मन वाणी कर्म से बने हुए पापों
 का नाश होगा ।। १६ ।। इस प्रकार देवी गण्डकी को वर देकर भगवान् विष्णु वहीं अर्न्तध्यान हो गए । हे वसुन्धरे त्रिवेणी
 क्षेत्र के माहात्म्य को बताता हूँ! यहाँ भगवान् शंकर का एक महान् लिंग! जिसे “त्रिजलेश्वर” महादेव कहते हैं ।। १७ ।।
 देविका नाम की एक नदी भी वहीं आकर तपस्या कर रही थी ।। १८ ।। पुलस्त्य एवं पुलह मुनि के आश्रम के पास यह तथा
 गंगा नदी भी आकर मिली । इन तीन नदियों के एक साथ मिल जाने के कारण यह स्थान “त्रिवेणी” संगम नाम से प्रसिद्ध
 हुआ ।। १९ ।। पृथ्वी बोली! प्रभो मैंने तो सुना है कि त्रिवेणी केवल प्रयाग में ही है जहाँ भगवान् महेश्वर एक “शूलटंक”
 नाम से तथा दूसरे “सोमेश्वर” के नाम से प्रसिद्ध हैं ।। २० ।। साथ ही वहाँ स्वयं श्री हरि भी वेणीमाधव नाम से विराजते

यमुना चैव सरस्वत्यैपरा नदी ।। २१ ।। तीर्थराज इतिख्यातं तत्तीर्थं केशवप्रियम् ।। सैव त्रिवेणीविख्याता
 किमपूर्वाभ्रशंससि ।। २२ ।। वराह भगवानउवाच ।। शृणुष्वदेवि! भद्रन्ते यद्गुह्यं परिपृच्छसि ।। अत्र
 ते कीर्त्तियिष्यामि सेतिहासाङ्कथां शुभाम् ।। २३ ।। पुराविष्णुस्तपस्तेपे लोकानां हितकामया ।।
 हिमालयेगिरौरम्ये देवतागणसेविते ।। २४ ।। ततो बहुतिथे काले याते सति तपस्यतः ।। तीब्रन्तेजः
 प्रादुरासीद्येनलोकाश्चराचराः ।। २५ ।। तस्योष्मणाः समुद्भूतः स्वेदपुरस्तुगण्डर्योः ।। तेन जाताधुनी-
 दिव्यालोकानामधहारिणी ।। २६ ।। महर्लोकादयः सर्वेविस्मिताः सर्वतोदिशम् ।। तत्र गत्वा शिवसाक्षात्
 प्रसन्नः स गणः प्रभुः ।। २७ ।। उवाच परमं-विष्णुतदा शम्भुः स्मयन्निव ।। तपस्यसि किमिच्छन्हि त्वं
 है! वहाँ गंगा, यमुना सरस्वती ये तीन नदियाँ हैं ।। २१ ।। और यह तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध है । वह तीर्थ भगवान केशव
 को प्रिय है! फिर आप जो गण्डकी की "त्रिवेणी" बता रहे हैं यह वही त्रिवेणी है या कोई दूसरी? ।। २२ ।। वराह भगवान
 बोले-सुनो देवि जो तुमने गूढ़ रहस्य पूछा है यहाँ उसके विषय में एक प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है ।। २३ ।। हिमालय पर्वत
 के रमणीय स्थल में देवता लोग निवास करते हैं ।। २४ ।। बहुत पहले जगत के हित करने के विचार से भगवान विष्णु वहीं
 तपस्या करने लगे । बहुत समय तक तपस्या करत-करते उनके श्रीविग्रह से एक अत्यन्त दिव्य तेज प्रकट हुआ! जिससे
 चर और अचर संपूर्ण संसार जलने लगा ।। २५ ।। और विष्णु के गण्डस्थल (कपोल) पसीने से भीग गए उसी पसीने से
 पापनाशिनी दिव्य नदी गंगा प्रवाहित हुई ।। २६ ।। इस अद्भुत घटना से जनलोक, महर्लोक प्रभृति सभी चारों दिशाओं में
 आश्चर्य से भर गए । अंत में वहाँ ब्रह्मा सहित सभी देवता भगवान शंकर तथा गण सहित प्रसन्न होकर जहाँ भगवान
 विष्णु तपस्या में स्थित थे ।। २७ ।। वहाँ पहुँचकर उन्होंने कहा! आप सर्व समर्थ हैं अखिल जगत आप से बना है । आप
 के मन में क्या अभिलाषा उत्पन्न हुई जो आप तप कर रहे हैं ।। २८ ।। इस पर जगत प्रभु विष्णु ने उन्हें प्रणाम करके

कर्ता जगताम्प्रभुः ॥१२८॥ एवमुक्तः प्रत्युवाच प्रणम्यजगताम्प्रभुः ॥ अहं लोकहितार्थाय तपस्तप्तु
 समुद्यतः ॥१२९॥ त्वत्तो वरानभीप्सन्वै त्वद्दर्शनसमुत्सुकः ॥ त्वद्दर्शनमनुप्राप्यकृतार्थो ऽस्मि जगत्पते ॥
 ३० ॥ शिवउवाच ॥ मुक्तिक्षेत्रमिदं देव दर्शनादेव मुक्तिदम् ॥ गण्डस्वेदोद्भवा यत्र गण्डकी सरिताम्बरा ॥
 भविष्यामि न सन्देहो यस्यगर्भे भविष्यासि ॥ ३१ ॥ त्वयि स्थिते जगन्नाथे तव सान्निध्यकारणात् ॥
 अहं ब्रह्मा देवाश्च ऋषिभिः सह केशव ॥ ३२ ॥ सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च सर्व तीर्थानिचाप्युत ॥
 वसिष्यामः सदैवान्न गण्डक्यां जगताम्पते ॥ ३३ ॥ यत्रसा परमापुण्या गण्डकी भुक्तिमुक्तिदा ॥
 अपरा देविकानाम्नी गण्डक्या सहसङ्गता ॥ ३४ ॥ पुलस्त्यपुलहौ पूर्वं तेपाते परमन्तपः ॥ यत्र
 उत्तर दिया “ मैं संसार की हित कामना से तप करने के लिए उद्यत हुआ हूँ ॥१२९॥ आप के दर्शन के लिए भी मन
 में बड़ी लालसा थी जगत प्रभू इस समय आप का दर्शन पा जाने से मेरा यह मनोरथ सफल हो गया ॥३०॥ भगवान
 शिव बोले-भगवन यह मुक्ति क्षेत्र है इसके दर्शन करने से ही मनुष्य मुक्ति पाने का अधिकारी हो जाता है! क्योंकि यहाँ
 आपके गण्डस्थल (कपोल) से प्रकट हुई “गण्डकी” नदी नदियों में श्रेष्ठ होगी। जिसके गर्भ में आप सुशोभित होंगे इसमें
 संशय नहीं है ॥३१॥ आप जगन्नाथ रूप में स्थित हैं। जब आप का यहाँ निवास होगा तो केशव आप के संपर्क में मैं
 शिव ब्रह्मा समस्त देवता, ऋषि, यज्ञ, तीर्थ-प्रायः सभी गण्डकी नदी में सदा निवास करेंगे ॥३२॥ भुक्ति - मुक्ति देने वाली
 परमपुण्यमयी वह गण्डकी जहाँ हैं! वहीं ‘देविका’ नाम से प्रसिद्ध एक दूसरी नदी भी “गण्डकी” के साथ मिल जाती
 है ॥३३॥ यहीं से थोड़ी दूर पर पुलस्त और पुलह मुनि आश्रम बनाकर सृष्टि का विधान संपन्न होने के लिए महान
 तपस्या कर रहे थे ॥३४॥ तप के पूर्ण होने पर उन्हें सृष्टि करने कि शक्ति सुलभ हो गई। उसी समय ब्रह्मा के शरीर
 से एक पुण्यमयी नदी गंगा जो नदियों में प्रधान मानी जाती है ॥३५॥ वह तथा एक और नदी देविका (ब्रह्मपुत्री) गण्डकी

सुष्टिविधानार्थं कृत्वाश्रमपदं पृथक् ॥३५॥ सुष्टेर्विधानसामर्थ्यं यत्र लब्धं ततः परम् ॥ ततोऽभूद्ब्रह्मतनया
 पुण्या सा सरिताम्बरा ॥ ३६ ॥ गण्डक्या यत्र मिलिता ब्रह्मपुत्री यशस्विनी ॥ त्रिवेणी सा
 महापुण्यादेवानामपि दुर्लभा ॥ ३७ ॥ पुरा वेदनिधेः पुत्रौ जयो विजय एव च ॥ यज्ञविद्यासुनिपुणौ
 वेदवेदाङ्गपारगौ ॥ ३८ ॥ मरुत्तेनेकदाचित्तावाहृतौ कुशलो द्विजौ ॥ राज्ञा समाप्तयज्ञेन पूजियित्वा
 पुरस्कृतौ ॥ ४० ॥ दक्षिणाभिस्तोषयित्वा विसुष्टौ गृहमागतौ ॥ विभागङ्कर्तुमारब्धौ शापं दत्त्वापरस्परौ ॥
 एवन्तौ ग्राहमातंगवभूतां शापतः पृथक् ॥ ४१ ॥ बहुन्यब्दसहस्राणि व्यतीतानितयोस्तदा ॥ वने
 विहरतोर्भूमे ! शापमोहितयोः सतोः ॥४१॥ कदाचित्सगजः स्नातुं करेणु गणसंवृतः ॥
 में आकर मिल गयी, अतः उस महान् पवित्र नदी का नाम त्रिवेणी पड़ गया ॥३६॥ यह त्रिवेणी महापुण्य देने वाली
 देवताओं को भी दुर्लभ है ॥३७॥ हे देवि प्राचीन समय की बात है वेद विद्या के विशारद कर्दम मुनि के दो पुत्र थे जिनका
 नाम क्रमशः जय और विजय था ॥ ये दोनों यज्ञ विद्या में निपुण तथा वेद एवं वेदांग के पारगामी विद्वान् थे ॥३८॥ संयोग
 से कभी उन दोनों परम कुशल ब्राह्मणों को राजा मरुत ने यज्ञ के लिए बुलाया ॥ यज्ञ समाप्त हो जाने पर राजा ने उन
 दोनों भाइयों की पूजा की और उन्हें प्रभूत दक्षिणा दी ॥३९॥ अब वे दोनों ब्राह्मण घर आ गए और दक्षिणा में मिली
 हुई संपत्ति को बाँटने लगे ॥ बंटवारे के आरम्भ में ही झगड़ा होने के कारण एक दूसरे को श्राप देने लगे ॥४०॥ श्राप
 के कारण वे दोनों ब्राह्मण अलग-अलग गज और ग्राह बन गए ॥ (इनमें विजय तो गण्डकी नदी में जातिसार ग्राह हुआ
 और जय त्रिवेणी के वन्य क्षेत्र में हांथी) इस प्रकार ग्राह और गजराज दोनों को वहीं रहते हुए कई हजार वर्ष बीत
 गए ॥४१॥ शाप से मोहित होकर वन और भूमि पर विचरते-विचरते एक समय की बात है! वह हाथी कभी हंथिनियों
 के झुण्ड को साथ लेकर त्रिवेणी में पहुँचा और उसके बीच में जाकर स्नान करने लगा ॥४२॥ इसी क्रीडा (खेल) के

त्रिवेणीभित्तौ यातो ऽवगाहनपरायणः ॥१४२॥ जग्राह सुद्रढं पादं गजो ऽपि च विधागतः ॥ ग्राह
 विव्याध सो ऽव्येनमाकर्षयततज्जले ॥ ४३ ॥ प्रयुध्यतोस्तयोरेवं मत्सरग्रस्तयोः सतेतः ॥ सत्त्वानि
 पीडितान्यासन्ननेकानि क्षयं ययुः ॥ ४४ ॥ ततो जलेश्वरो राजा भगवन्तं व्यञ्जिपत् ॥ तेन विजायितो
 देवो भगवान् भक्तवत्सलः ॥ सुदर्शनेन चक्रेण ग्राहस्यं समपाटयत् ॥१४५॥ क्षिप्तं पुनः पुनस्तन्तु
 शिलाः संघट्टयन्धरे ॥ संघट्टन्नातु चक्रस्य शिलाश्चक्रेण लाञ्छिताः ॥१४६॥ बाहुभ्येन वभूवुर्दि
 तस्मिन् क्षेत्रेपरेमम् ॥ वज्रकीटैश्च ज्ञातानि सन्ततानि विलोकय ॥१४७॥ न सन्देहस्तत्रया कार्यास्त्रिवेणी
 प्रतिसुन्दरिः ॥ त्रिवेणी क्षेत्रमहिमा एवन्ते परिकीर्तितः ॥१४८॥ यदा च भरतोर राजा पुलस्तकस्याश्रमास्थितः ॥
 स्थित्वा पर्य चरद्विष्णुं त्रिजलेसमपूजयत् ॥१४९॥ ततः प्रभृति तस्यासीद्भरतेनारतिस्फुटम् ॥ पुनश्च
 वीच मे देवयोग से प्रेरित वह ग्राह अपने पुराने बैर को याद करता हुआ, उस हाथी के पास आया और उसका बैर बकड
 लिया । इधर वह ग्राह उस हाथी को जल में धींचने लगा हाथी बाहर निकलना चाहता था, और ग्राह उसे भीतर धींच
 ने जाना चाहता था ॥१४३॥ इस प्रकार मत्सर (द्वेष) से परिपूर्ण गज एवं ग्राह उन दोनों के परस्पर लड़ने से बर्तों के
 बहुत से प्राणियों को मडान पीड़ा पहुँची ॥१४४॥ तब उस क्षेत्र के स्वामी "वसुध" ने भगवान् श्री हरि को लदेका दे दिया
 और इस पर भगवान् ने सुदर्शन चक्र से ग्राह के मुँह को चीर डाला ॥१४५॥ इससे शिलाओं पर श्री चोट पहुँची । अतः
 चक्र के आघात से शिलाओं में भी विन्ड पड़ गए ॥१४६॥ उस क्षेत्र के विषय में भरे द्वारा अधिक कहा गया कि र श्री
 उसके बारे में कहते हैं जिससे वे शिलाएँ वज्र कीट द्वारा खाई ली दिखती हैं ॥१४७॥ हे सुन्दरी ! इस त्रिवेणी क्षेत्र के
 विषय में तुम्हें संदेह करना शीक नहीं है, इस क्षेत्र की ऐसी महिमा है जिसका वर्णन श्रीने तुम्हसे किया ॥१४८॥ हे देवि
 राजा भरत भी पुलस्तकस्य महि के आश्रम के निकट जाकर "त्रिवेणीश्वर" भगवान् श्री कृष्ण के भजन कर लिये

... ५० ॥ नीनेव भूनिना ... १५१ ॥ शातप्रायेणे ... १५२ ॥ ततो भक्तकृपावेशात् ... १५३ ॥ तत्र स्वानेन ... १५४ ॥ भक्तसंगसंगार्थेण ... १५५ ॥ स्वयन्वैव ... १५६ ॥ शान्तप्राप्तिषु ... १५७ ॥ श्रीशिविभारं ... १५८ ॥ श्रीशिविभारं ... १५९ ॥ ततो भक्तकृपावेशात् ... १६० ॥ तत्र स्वानेन ... १६१ ॥ भक्तसंगसंगार्थेण ... १६२ ॥ स्वयन्वैव ... १६३ ॥ शान्तप्राप्तिषु ... १६४ ॥ श्रीशिविभारं ... १६५ ॥ श्रीशिविभारं ... १६६ ॥ ततो भक्तकृपावेशात् ... १६७ ॥ तत्र स्वानेन ... १६८ ॥ भक्तसंगसंगार्थेण ... १६९ ॥ स्वयन्वैव ... १७० ॥ शान्तप्राप्तिषु ... १७१ ॥ श्रीशिविभारं ... १७२ ॥ श्रीशिविभारं ... १७३ ॥ ततो भक्तकृपावेशात् ... १७४ ॥ तत्र स्वानेन ... १७५ ॥ भक्तसंगसंगार्थेण ... १७६ ॥ स्वयन्वैव ... १७७ ॥ शान्तप्राप्तिषु ... १७८ ॥ श्रीशिविभारं ... १७९ ॥ श्रीशिविभारं ... १८० ॥ ततो भक्तकृपावेशात् ... १८१ ॥ तत्र स्वानेन ... १८२ ॥ भक्तसंगसंगार्थेण ... १८३ ॥ स्वयन्वैव ... १८४ ॥ शान्तप्राप्तिषु ... १८५ ॥ श्रीशिविभारं ... १८६ ॥ श्रीशिविभारं ... १८७ ॥ ततो भक्तकृपावेशात् ... १८८ ॥ तत्र स्वानेन ... १८९ ॥ भक्तसंगसंगार्थेण ... १९० ॥ स्वयन्वैव ... १९१ ॥ शान्तप्राप्तिषु ... १९२ ॥ श्रीशिविभारं ... १९३ ॥ श्रीशिविभारं ... १९४ ॥ ततो भक्तकृपावेशात् ... १९५ ॥ तत्र स्वानेन ... १९६ ॥ भक्तसंगसंगार्थेण ... १९७ ॥ स्वयन्वैव ... १९८ ॥ शान्तप्राप्तिषु ... १९९ ॥ श्रीशिविभारं ... २०० ॥ श्रीशिविभारं ...

भूयो जन्मभार भवेत् ॥ १५८ ॥ एतत्ते सर्वमाख्यातङ्क्षेत्रं गुह्यं वसुन्धरे ॥ ॥ आरभ्य मुक्तिक्षेत्रं
 तत्क्षेत्रं द्वादशयोजनम् ॥ १५९ ॥ शालग्रामस्वरूपेण मया यत्र स्थितं स्वयम् ॥ ॥ स्वभक्तानां विशेषेण
 परमानन्ददायकम् ॥ १६० ॥ शिलाः सम्पूजयेद्यस्तु नित्यं चक्रसमन्विताः ॥ ॥ नजातुचिज्जनन्यावै
 जठरसमुपाविशेत् ॥ १६१ ॥ अस्यां भवाये चाश्मानश्चक्रचिन्हैरलङ्कृताः ॥ ॥ ते साक्षाद्भगवन्तो हि स्व
 त्व स्पर्धराः पुनः ॥ १६२ ॥ अपिपाप सहस्राणां कर्ता यदि नरो भवेत् ॥ ॥ शालग्रामशिलातोयं पीत्वापूयेत
 तत्क्षणात् ॥ १६३ ॥ नजातुचिस्त्रिधाकार्यं शालग्रामस्य पूजनम् ॥ ॥ भर्तृहीनाथ सुभगा स्वर्गलोकहितैषया ॥
 १६४ ॥ मोहात्स्मुशन्तिमहिला जन्मशीलगुणान्विता ॥ ॥ हित्वा पुण्यसमूहन्तु सत्वरं नरकं ब्रजेत् ॥ ॥

नामक इत क्षेत्र में विष्णु का भजन करता हुआ और अपने भक्तों को ज्ञान प्रदान करता हुआ मनुष्य मुक्त हो जाता
 है ॥ १५८ ॥ इन तीन धारा वाले तीर्थ में स्नान करके और देवताओं को तृप्त करके और योगियों की पूजा करके फिर भाता
 इं गर्भ में जन्म नहीं लेता ॥ १५९ ॥ हे वसुन्धरे! हमने तुमसे यह गूढ़ रहस्य मय क्षेत्र बतलाया है यह क्षेत्र मुक्ति क्षेत्र से
 तेकर बाराह योजन तक है ॥ १६० ॥ जहाँ मैं अपने भक्तों को आनंद देता हुआ शालग्राम शिला के रूप में स्वयं निवास
 करता हूँ ॥ १६० ॥ जो मनुष्य चक्र चिन्ह वाली उन शिलाओं का पूजन करता है वो फिर कभी जननी के गर्भ में नहीं
 जाता ॥ १६१ ॥ इस नदी में होने वाले चक्र चिन्हों से अंकित जो और भी पत्थर हैं वे साक्षात् भगवान ही हैं ॥ १६२ ॥ हजारों
 नरों को करने वाला मनुष्य भी शालग्राम शिला के जल को पीकरके तत्क्षण पवित्र हो जाता है ॥ १६३ ॥ स्त्री को शालग्राम
 का पूजन नहीं करना चाहिए ॥ स्वर्ग की इशा करने वाली स्त्री को शालग्राम का पूजन नहीं करना चाहिए वह
 नभवा ही स्पर्धा विधवा ही ॥ १६४ ॥ यदि कोई नारी जन्म, शील, और गुणों से भले ही युक्त; हो किन्तु यदि वह मूर्खतावश

६५ ॥ स्त्रोपाणिमुक्त पुष्पाणि शालग्रामशिलोपरि ।। पत्युरधिकपापानि वदन्तिब्राह्मणोत्तमाः ।। ६६ ॥
 करोति याति नरकं यावदिन्द्राश्चतुर्दश ।। अपि पापसमाचारो ब्रह्महत्यायुतोऽपिवा ।। शालग्राम शिलातोयं
 पीत्वा याति परांगतिम् ।। ६७ ॥ शिलां समूजयेद्यस्तु सत्यनारायणव्रतम् ।। इहलोके सुखं भुक्त्वा
 चान्ते सत्यपुरं ब्रजेत् ।। ६८ ॥ विष्णुनारायणव्रतम् शृणोति शुभबुद्धये ।। कुलानि तारितान्येवं सप्त
 पूर्वापराणि च ।। ६९ ॥ इति श्रीव० पु० रे० भगवञ्छास्त्राद्युक्त मतानुसारेण बटुकप्रसादमिश्रभास्करैः
 संगृहीते डा० देशराज त्रिपाठीनेन भाषाटीकायाम श्रीसत्यनारायणव्रतकथायां शालग्रामनाममाहात्म्यम
 वर्णनो द्वितीयोऽध्यायः ।। २ ।।

शालग्राम का स्पर्श कर लेती है । तो वह अपने सभी पुण्यों को नष्ट करके शीघ्र ही नरक को चली जाती है ।। ६५ ॥ स्त्री
 के हाँथ से शालग्राम की शिला पर चढ़ाए गए पुष्प उस स्त्री के पति को अधिक पाप देने वाले होते हैं । ऐसा उत्तम ब्राह्मण
 कहते हैं ।। ६६ ॥ और वह पति जब तक चौदह इन्द्रों का राज्य रहता है तब तक वह नरक में वास करता है ।। ६७ ॥
 कोई भी पापी अथवा ब्रह्म हत्या करने वाला मनुष्य भी शालग्राम शिला के जल को पीकर के परमगति को प्राप्त हो जाता
 है ।। ६८ ॥ सत्यनारायण व्रत के समय जो शालग्राम का पूजन करता है वह इस लोक में सुखों को भोग कर अन्त में
 सत्यपुर को प्राप्त होता है । जो अपनी बुद्धि की शुद्धि के लिए सत्यनारायण के व्रत को सुनता है वह अपने सात कुल
 आगे के और सात कुल पीछे के तार देता है ।। ६९ ॥ इति श्री वराहपुराणरेवाखण्डे भगवञ्छास्त्राद्युक्त मतानुसारेण बटुकप्रसाद
 मिश्र भास्करैः डॉ० देशराज त्रिपाठीनेन भाषाटीकायाम श्री सत्यनारायण व्रतकथायां शालग्रामनाममाहात्म्यम द्वितीयोऽध्यायः ।।



सापत्तिः क्वापि में गताः ॥८॥ ब्राह्मणानां सहस्राणि सत्स्त्रीणामयुतानि च ॥ निहतानि मया
 ब्रह्मन्सततं पापकारिणा ॥९॥ काङ्क्षतिं प्रतिपत्स्यामि ब्रह्मन्धोऽहं द्विजोत्तम ॥ इदानीं तद्गुमिच्छामि
 तपोऽहन्त्वत्समीपतः ॥ उपदेश प्रदानेन प्रसादङ्कर्तुमर्हसि ॥१०॥ एवमुक्तोऽप्यसौ विप्रो नोत्तरं
 प्रत्युवाच ॥ ब्रह्महापापकर्मोति मत्वा ब्राह्मणपुङ्गवः ॥११॥ अनुक्तोऽपि स
 धर्मेषुर्व्याधस्तत्रैव तस्थिवान् ॥ स्नात्वा नद्या द्विजः सोऽपि वृक्षमूलमुपाश्रितः ॥१२॥ वराह भगवानुवाच ॥
 कस्यचित्त्वथकालस्य तां नदीमगमत्किल ॥ व्याधो वुभुक्षितः शान्तं तं विप्रं हन्तुमुद्यतः ॥१३॥ अन्तर्जलगतं
 नाण हाथ से गिरा दिए और कहा ॥७॥ व्याध ने कहा-ब्रह्मन्! मैं आपको मारने के विचार से ही यहाँ आया था, किन्तु आपको
 देखते ही पता नहीं मेरी वह क्रूर बुद्धि अब कहाँ चली गई ॥८॥ मेरा जीवन सदा पाप करने में ही बीता है, अब तक मेरे
 द्वारा हजारों ब्राह्मण मृत्यु के मुख में प्रवेश हो गए और दस हजार साध्वी नारियों का भी मैंने अंत कर डाला है! अहो ब्राह्मण
 की हत्या करने वाला मैं। पापी हूँ ॥९॥ पता नहीं किस गति को प्राप्त करूँगा? अब आप के पास रहकर मैं भी तप करना
 चाहता हूँ। आप कृपया उपदेश देकर मेरा उद्धार करें ॥१०॥ व्याध के इस प्रकार कहने पर उसे ब्रह्मघाती एवं महान पापी
 समझकर द्विज श्रेष्ठ आरुणि ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया ॥११॥ परन्तु हृदय में धर्म की अभिलाषा जग जाने के कारण ब्राह्मण
 के कुछ न कहने पर भी वह व्याध वहीं ठहर गया। ब्राह्मण भी नदी में स्नान करके वृक्ष के नीचे बैठकर तप करते रहे ॥१२॥
 वराह भगवान बोले-इस प्रकार नियमित उन दोनों का धर्मकार्य चलने लगा। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए, एक दिन की बात
 है, आरुणि स्नान करने नदी के जल में भीतर गए थे। इधर कोई भूख से व्याकुल बाघ तब तक उन शौत स्वरूप मुनि को
 मारने के लिए आ पहुँचा ॥१३॥ जल के भीतर ब्राह्मण को बाघ जब तक मार पाता कि इसी बीच व्याध ने बाघ को मार

विप्रं यावद्द्व्याधो जिघृक्षति ।। तावद्द्व्याधेन व्याधो ऽसौ सद्यः प्राणैर्वियोजितः ।। ११४ ।। तस्माद्द्व्याधशरीरात्तु
 उत्थाय पुरुषः किल ।। विप्रश्चन्तर्जलेमग्नः श्रुत्वां तं शब्दमाकुलम् ।। नमो नारायणायेति वाक्यमेतदुवाच
 ह ।। ११५ ।। व्याधो णापि श्रुतो मन्त्रः प्राणैः कण्ठस्थितैस्ततः ।। श्रुतमात्रे जहौ प्राणान्
 पुरुषश्चाभवच्छुभः ।। ११६ ।। सो ऽब्रवीद्यामि तन्देशं यत्र विष्णुः सनातनः ।। त्वत्प्रसादाद्विजश्रेष्ठ
 मुक्तपाप्मा निरामयः ।। ११७ ।। इत्युक्तो ब्राह्मणः प्राह्को ऽसित्वं पुरुषोत्तम ।। सो ऽब्रवीत्तस्य राजेन्द्र ! यद्दुत्त
 पूर्वजन्मनि ।। ११८ ।। दीर्घबाहुरितिख्यातः सर्वधर्मविशारदः ।। अहं जानामि वेदांश्च अहं वेदिशुभाशुभम् ।।
 ब्राह्मणैर्नैव में कार्यं कि वस्तु ब्राह्मणा इति ।। ११९ ।। तस्यैवंवादिनो विप्राः सर्व्वक्रोधसमन्विता ।। ऊचुः
 जाला ।। ११४ ।। उसके (बाध के शरीर से) जिस समय बाध ब्राह्मण पर झपटा था उस समय घबड़ाहट के कारण "ऊँ नमो
 नारायणाय" यह मंत्र मुँह से निकल गया ।। ११५ ।। बाध के प्राँण तब तक उसके कंठ में ही थे और उसने यह मंत्र सुन लिया।
 प्राँण निकलते समय केवल इस मंत्र के सुन लेने से वह एक दिव्य पुरुष के रूप में बदल गया ।... ।। तब उसने कहा-द्विजवर!
 जहाँ भगवान विष्णु विराजमान हैं, मैं वहीं जा रहा हूँ, आप की कृपा से मेरे सारे पाप धुल गए ।। ११७ ।। (और मैं शुद्ध एवं
 कृतार्थ हो गया) इस प्रकार उस पुरुष के कहने पर विप्रवर आरुणि ने पूछा-नर श्रेष्ठ तुम कौन हो? राजेन्द्र! तब पूर्व जन्म
 में जो बात वीती थी, उसे बतलाते हुए कहने लगा ।। ११८ ।। इसके पहले जन्म में मैं, "दीर्घबाहु" के नाम से प्रसिद्ध एक राजा
 था । समस्त वेद, संपूर्ण धर्म शास्त्र मुझे भली प्रकार ज्ञात थे । पर अन्य ब्राह्मणों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं था मैं प्रायः ब्राह्मणों
 का अपमान भी कर देता था ।। ११९ ।। मेरे इस व्यवहार से सभी ब्राह्मण क्रोधित हो गए, और उन्होंने मुझे भीषण श्राप दे दिया
 - "तू अत्यन्त निर्दयी वाध हो जाएगा" यह श्राप दे दिया ।। १२० ।। (जगत गुरु ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना चाहिए और

शापं दुराधर्षं क्रूरो व्याधो भविष्यसि ।। २० ।। अवमानात्तु विप्राणां नात्यर्थं स्मरणन्तव ।। मृत्युकालं
 तु संमूढं केशवेति च श्रोष्यसि ।। २१ ।। इत्युक्तो ऽहं पुरातैस्तु ब्राह्मणैर्वेदपारगैः ।। तमेव सर्वं सम्याप्त
 ब्रह्मशापं सुपुष्कलम् ।। २२ ।। ततस्तान्ब्राह्मणान्सर्वाभ्रिणित्य मया मुने ।। उक्तानुग्रह हेतोर्वै त
 ऊचुर्माभिदं पुरा ।। २३ ।। षष्ठान्शकालिकस्याग्रे यस्ते स्थास्यति कश्चन ।। स मध्यस्ते तु भविता
 कञ्चित्कालन्नराधिप ।। २४ ।। यदेषुघातं लब्ध्वा तु प्राणैः कण्ठगतैभवान् ।। श्रोष्यसे द्विजवक्तान्तु
 नमोनारायणेति च ।। तदा स्वर्गगतिस्तुभ्यं भविता नात्र संशयः ।। २५ ।। परवक्तगतश्च चापि विष्णोर्नाम
 श्रुतं मया ।। कृतद्वेषस्य विप्राणां प्रत्यक्षो ऽभवदच्युतः ।। २६ ।। यः पुनर्ब्राह्मणान् पूज्य स्ववक्तृषु
 न होते ह्ये देवना ही चाहिए यह विश्व के प्रथम पूज्य हैं) क्योंकि तेरे द्वारा ब्राह्मणों का भीषण अन्याय हो रहा है । तुझे
 किसी बात का स्मरण भी न रहेगा । अरे प्रचण्ड मूर्ख! मृत्यु के समय भगवान नारायण का नाम तेरे कानों में पड़ेगा ।। २१ ।।
 विप्रवरा! वे सभी ब्राह्मण वेद के पारगामी विद्वान थे उनका भीषण भ्राप पुत्रको लग गया ।। २२ ।। मुने! जब ब्राह्मणों ने भ्राप
 त्रिया तो मैं उनके पैरों पर गिर पड़ा था उनसे कृपा पूर्वक क्षमा की भीख मांगी, अतएव उन्होंने मेरे उच्चार को भी बला बला
 दी ।। २३ ।। और कदा-राजन्! प्रत्येक छठे दिन मध्याह्नकाल में जो कोई तुझे मिले उसे तुम ह्या जाना-बहर तेरा आह्वा
 दोगा ।। २४ ।। जब तुझे बाण लगेगा और उसके आघात से तेरे प्राण कंठ में आ जायेंगे, उस समय किसी ब्राह्मण के मुख से
 जब "ऊँ नमो नारायणाय" मंत्र तेरे कानों में पड़ेगा तब तुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी-इसमें संशय नहीं है ।। २५ ।। मैं
 दूसरे के मुख से भगवान विष्णु का यह नाम सुना है । परिणाम स्वल्प मुझ ब्रह्मद्वेषी को भी भगवान नारायण का दर्शन सुलभ
 हो गया ।। २६ ।। फिर जो ब्राह्मणों का सम्मानपूर्वक अपने गृह से "ऊँ हरये नमः" इस मंत्र का उच्चारण करते हुए ब्रह्मद्वेषी

नमोहरिम् ॥ वदन्प्राणैर्वियुज्येत मुक्तो ऽसौ वीतिकिल्बषः ॥१२७॥ सत्यं सत्यं पुनः सत्यमुन्मथ्य
 भुजमुच्यते ॥ जङ्गमाः ब्राह्मणाः देवाः कूटस्थः पुरुषोत्तमः ॥१२८॥ एवमुक्त्वा गतः स्वर्गं स राजा
 वीतकल्मषः ॥ ब्राह्मणो ऽपि तदा मुक्तस्तं व्याधमप्रत्यभाषत ॥१२९॥ ऋषिस्त्वाच ॥ जिघृक्षोर्मुग्धाजस्य
 यत्त्वया रक्षितोह्यहम् ॥ तत्पुत्रतुष्यते दम्भी वरं वरय सु व्रत ॥१३०॥ व्याधउवाच ॥ एष एव वरोमह्यं
 यत्त्वं मां भाषते द्विज! अतः परं वरेणाहं किङ्करोमि प्रसाधिमाम् ॥१३१॥ ऋषिस्त्वाच ॥ अहं त्वया
 पुरा व्याध प्रार्थितोऽस्मि तपो ऽर्थिना ॥ बहुपातकयुक्तेन घोररूपेण चानघ! ॥१३२॥ इजानी तव
 पापानि देविकाभिषवेण च ॥ मद्दर्शनेन च चिरं विष्णुनामश्रुतेन च ॥ नष्टानिशुद्धदेहो ऽसिसाम्प्रतन्नात्र
 का त्याग करता है तो वह परम पवित्र पुरुष जीते जी ही मुक्त है ॥१२७॥ मैं अपनी दोनों भुजाएं उठाकर बार-बार कहता
 हूँ - (इस समय कथा सुनने वाले दोनों हाँथ उठाकर इस नाम का घोष करें) और यह कहें यह सत्य है-यह सत्य है-और
 यह निश्चय ही सत्य है ब्राह्मण चलते-फिरते देवता हैं। भगवान पुरुषोत्तम कूटस्थ पुरुष हैं ॥१२८॥ ऐसा कहकर शुद्ध
 अंतःकरण वाला वह बाध "दिव्य पुरुष" स्वर्ग को चला गया और आरुणि भी बाध के पंजे से छूटकर व्याध से कहने
 लगे ॥१२९॥ आज बाध मुझे खाने के लिए तैयार हो गया था- ऐसे अवसर पर तुमने मेरी रक्षा की है। अतएव उत्तम व्रत
 का पालन करने वाले। पुत्र! मैं तुमपर सन्तुष्ट हूँ, तुम वर मांगो ॥१३०॥ व्याध ने कहा - ब्राह्मण देवता। मेरे लिए यही व्रत
 पर्याप्त है जो आप मुझसे प्रेम पूर्वक बातें कर रहे हैं। भला, आप ही बतायें- इससे अधिक वर मांग कर मुझे करना डी क्या
 है? ॥१३१॥ ऋषि आरुणि ने कहा - व्याध। तुम्हारे मन में तपस्या करने की इच्छा थी, अतएव तुमने मुझसे प्रार्थना की थी।
 किन्तु हे गाप रहित। उस समय तुममें अनेक प्रकार के पाप थे ॥१३२॥ क्योंकि देविका नदी में स्नान करने, मेरे दर्शन करने

संशयः ॥३३॥ इदानीं वरमेकत्वं गृहाण ममसन्निधौ ॥ तपः कुरुष्व साधो त्वं चिरकालं यदिच्छसि ॥३४॥
 व्याधउवाच ॥ य एव भवता प्रोक्तो विष्णुर्नारायणः प्रभुः ॥ स कथं प्राप्यते मर्त्यै-रेष एव वरोमम ॥३५॥
 ऋषिस्त्वाच ॥ तमुद्दिश्य ब्रतं कुर्याद्यत्किञ्चित्पुरुषोऽच्युतम् ॥ स परन्तमवाप्नोति भक्त्या युक्तः
 पुमानिति ॥३६॥ एवं ज्ञात्वा भवान् पुत्र! ब्रतमेतत्समाचर ॥ नभक्ष्येद्गणान् ननु न वदेदनुतं क्वचित् ॥३७॥
 एतत्ते व्रतमादिष्टं मया व्याध वरं ध्रुवम् ॥ अत्रैव तपसा युक्तेस्तिष्ठत्वं यावदिच्छसि ॥३८॥ वराह
 भगवानउवाच ॥ एवं चिन्तान्वितं मत्वा वरदो ब्राह्मणोऽभवत् ॥ मोक्षार्थिनमतो बुद्ध्वा वञ्चयित्वा गतो
 मुनिः ॥३९॥ सत्यनारायणोनाम महात्म्यं कथितं मया ॥ उपासते हरिभक्ताः किं वस्तु लोक
 तथा चिर काल तक भगवान विष्णु के नाम सुनने से तुम्हारे पाप नष्ट हो गये हैं, इसमें कोई संशय नहीं है ॥३३॥ अब मेरा
 यह वर स्वीकार कर लो, वह यह है- कि तुम अब यहीं रहकर तपस्या करो 'क्योंकि यह तुम्हारे पहले की इच्छा भी
 थी' ॥३४॥ व्याध बोला- ऋषे! आपने जिन परम् प्रभु भगवान नारायण और विष्णु की चर्चा की है ॥ उन्हें मानव कैसे प्राप्त
 कर सकते हैं? ॥३५॥ ऋषि आरुणि बोले- हे! व्याध! कोई भी पुरुष सनातन श्री हरि के उद्देश्य से जिस किसी व्रत को
 भक्ति पूर्वक करने में संलग्न हो तो वह भक्ति युक्त पुरुष उन्हें प्राप्त कर ही लेता है ॥३६॥ पुत्र! तुम ऐसा जानकर भगवान
 नारायण का व्रत करो ॥ "व्रत का रूप यह है"-कभी भी गणान्-(ब्राह्मण समाज के लिए बना हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए
 और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए) ॥३७॥ व्याध! मैंने तुमसे जो इस उत्तम व्रत की बात बताई है, वह विल्कुल सत्य है, अब
 तुम तपस्वी बन कर जब तक इच्छा हो यहां रहो ॥३८॥ भगवान वराह कहते हैं- वसुन्धरे! आरुणि को यह निश्चय हो गया
 कि यह व्याध मोक्ष पाने के लिए अत्यन्त चिंतित है ॥ अतः उन वर दाता ब्राह्मण ने इच्छित वर दे दिया ॥ और फिर एक दिन

दुर्लभम् ।।४०।। कथान्ते पूजयेत् विप्रान् भक्तिश्रद्धासमन्वितः ।। आचार्य्यय प्रकर्तव्या पूजा सन्तोषकारिका ।।४१।। एतत्पवित्रमायुष्यमेतत्कीर्तिविवर्धनम् ।। एतत्पवित्रं कल्याणं महापापहरंशुभम् ।।४२ आयुः कीर्तिधनस्वर्गपुत्रवांश्चाभिजायते ।। धारणाच्छ्रवणञ्चैव परंस्वर्गस्य धीमतः ।।४३।। इति श्रीव० पु० रे० प्रा० भवञ्छास्त्रे मतानुसारेण बटुकप्रसाद मिश्रभास्करैः संग्रहीते डा० देशराज त्रिपाठिनेन भाषाटीकायाम श्रीसत्यनारायणनाममहात्म्यब्रतकथायां तृतीयोऽध्यायः ।।३।।

अचानक वे ब्राह्मण देवता देखते-ही देखते उठ कर वहां से सहसा ही कहीं चले गये ।।३८।। यह सत्य नारायण भगवान के नाम का महात्म्य मेरे द्वारा कहा गया । जो हरि भक्ति उनकी उपासना करते हैं । उनको इस लोक में क्या दुर्लभ है? ।।४०।। कथा के अन्त में श्रद्धा और भक्ति से ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए । आचार्य की विधि पूर्वक पूजा करके संतुष्ट करना चाहिए ।।४१।। यह पवित्र (कथा) आयु, कीर्ति, धन, को बढ़ाने वाली है । यह पवित्र कल्याण तथा महापाप को हरने वाली है ।।४२।। सुनने और धारण करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है ।।४३।। इति श्री व० पु० रे० प्रा० भगवञ्छास्त्रे मतानुसारेण बटुकप्रसाद मिश्र भास्करैः डॉ० देशराज त्रिपाठिनेन भाषा टीकायाम श्रीसत्यनारायण शालग्रामनाममहात्म्यब्रतकथायाम त्रतीयो अध्यायः ।।

हरि शरणम् ।।



अथा तृतीयोऽध्यायः

सूत उवाच-अथान्यत्संप्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विज । कश्चित्काशीपुरे रम्ये ह्यासीद्विप्रोऽतिनिर्धनः
॥११॥ क्षुत्तृड्भ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले । दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान्
ब्राह्मणप्रियः ॥१२॥ बृद्धब्राह्मणरूपस्तं पप्रच्छ द्विजमादरात् । किमर्थं भ्रमसे विप्र महीं नित्यं
सुदुःखितः ॥१३॥ तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथ्यतां द्विजसत्तम । ब्राह्मण उवाच-ब्राह्मणोऽतिदरिद्रोऽहं
भिक्षार्थं वैभ्रमेमहीम् ॥१४॥ उपायं यदि जानासि कृपया कथय प्रभो । बृद्धब्राह्मण उवाच-सत्यनारायणो
विष्णुर्वोच्छितार्थफलप्रदः ॥१५॥ तस्य त्वं पूजनं विप्र । कुरुष्व व्रतमुत्तमम् । यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो

सूत जी ने कहा-हे ऋषियों, जिसने व्रत किया उस कथा को मैं कहता हूँ । काशी पुरी नामक सुन्दर नगर में एक अत्यंत सुन्दर ब्राह्मण रहता था ॥११॥ वह ब्राह्मण क्षुधा और तृषा से व्याकुल हो नित्य ही पृथ्वी पर विचरता था, ब्राह्मणों से अधिक स्नेह करने वाले भगवान उस विप्र को दुःखित देखकर ॥१२॥ वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर आदर पूर्वक पूछे-हे ब्राह्मण, तुम भूमि के ऊपर अत्यन्त दुःखी हो क्यों भटकते हो ॥१३॥ हे द्विजोत्तम! मैं उसका सारा कारण सुनना चाहता हूँ, ब्राह्मण ने कहा-मैं अत्यन्त दरिद्र हूँ । भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ ॥१४॥ हे प्रभु! यदि मेरी दरिद्रता दूर करने का उपाय जानते हों तो कृपया बतलायें । वृद्ध ब्राह्मण ने कहा-सत्यनारायण विष्णु मनोरथ सिद्ध करने वाले हैं ॥१५॥ हे विप्र! आप उन्नी का पूजन करें, जिसके करने मात्र से मनुष्य समस्त दुःखों से

॥ १८८ ॥ विद्वानं च व्रतस्थानि विप्रानां भाष्यमन्ततः । सत्यनारायणो वृद्धस्तत्रैवान्तः
 ॥ १८९ ॥ तद्व्रतं संकीर्णमिच्छुक्तं ब्राह्मणेन वै । इति सञ्चिन्त्य विप्रोऽसौ राज्ञी निद्रां च
 ॥ १९० ॥ ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायणव्रतम् । करिष्ये इति सहकृत्य भिक्षार्थमगमद्
 ॥ १९१ ॥ तस्मिन्नेव दिने विप्रः प्रचुरं द्रव्यमाप्तवान् । तेनैव बन्धुभिः सार्धं सत्यस्य
 ॥ १९२ ॥ सुदंष्ट्रः विनिर्मुक्तः सर्वसम्यक्समन्वितः । बभूव स द्विजश्रेष्ठो व्रतस्थास्य
 ॥ १९३ ॥ ततः प्रभृतिशून्यं च मासि मासि व्रतं कृतम् । एवं नारायणस्येदं व्रतं कृत्वा
 ॥ १९४ ॥ सर्वमायदिनिर्मुक्तो दुर्लभं मोक्षमाप्तवान् । व्रतमस्य यदा विप्राः पृथिव्यां
 ॥ १९५ ॥ तदैव सुदंष्ट्रः खंच मनुजस्य विनश्यति । एवं नारायणेनोक्तं नारायण
 ॥ १९६ ॥ विधिं पुरस्कृत्य को कल्पकर वृद्ध विप्र स्वधारी सत्यनारायण भगवान् वही अर्न्तव्यान हो
 ॥ १९७ ॥ इन्द्र इन्द्राण ने जिन इन को कइ है उन व्रत को अवश्य करुणा, वो सौचते हुए रात्रि को निद्रा न
 ॥ १९८ ॥ प्रातः काल ही उठकर इन्द्र विप्र सत्यनारायण का व्रत कर संकल्प कर भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा ॥ १६ ॥
 ॥ १९९ ॥ इन दिन को बहुत इन को प्रार्थन हुई और उस वन से बन्धु-बान्धवों सहित उसने सत्यनारायण का व्रत
 ॥ २०० ॥ इन्द्र इन्द्राण इन इन के उपासक से सम्पन्न दुष्टों से मुक्त हो सम्पूर्ण सम्यक्ति से पूर्ण हो गया ॥ १९९ ॥ उसी
 ॥ २०१ ॥ तद्विधिं व्रतं इन कार्य से तथा ॥ २०० ॥ सत्य नारायण का व्रत कर वह द्विजोत्तम ॥ १९२ ॥ समस्त पापों से मुक्त हो
 ॥ २०२ ॥ इन को प्राप्त हुआ सत्यनारायण इन को पृथ्वी पर जो कोई करता है ॥ १९३ ॥ उस मनुष्य के सब दुःख विनष्ट हो

महात्मने । 198 ।। मया तत्कथितं विप्राः किमन्यन् कथयामि वः । ऋषय ऊचुः-तस्माद् विप्राच्छुतं
 केन पृथिव्यां चरितं मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि श्रद्धाऽस्माकं प्रजायते । 199 ।।
 सूत उवाच-शृणुध्वं मुनयः सर्वे व्रतं येन कृतं भुवि । एकदा स द्विजवरो यथाविभवविस्तरैः । 196 ।।
 बन्धुभिः स्वजनैः सार्धं व्रतं कर्तुं समुद्यतः । एतस्मिन्नन्तरे काले काष्ठक्रेतासमागमत् । 197 ।।
 बहिः काष्ठं च संस्थाप्य विप्रस्य गृहमाययौ । तृष्णया पीडितात्मा च दृष्ट्वां विप्रकृतं व्रतम् । 198 ।।
 प्राणिपत्य द्विजं प्राह किमिदं क्रियते त्वया । कृते किं फलमाप्नोति विस्तराद् वद मे प्रभो । 199 ।।
 जाते है । इस प्रकार भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा । 198 ।। हे ऋषियों! मैंने यह व्रत आप लोगों को सुनाया और
 अब क्या वर्णन करूं? यों सुनकर ऋषियों ने कहा- हे मुने! उस ब्राह्मण से सुनकर इस व्रत को पृथ्वी पर किसने किया?
 वह हम सुनना चाहते हैं, हमारी विशेष श्रद्धा है । 199 ।। सूतजी ने कहा-जिसने इस व्रत को भूमि पर किया उसकी
 कथा सुनो- एक दिन वही श्रेष्ठ ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार । 196 ।। स्वजन-बन्धुओं सहित व्रत करने को उद्यत
 हुआ । इतने में काष्ठ क्रेता लकड़ी बेचने वाला आया । 197 ।। वह काष्ठ के भार को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर गया ।
 व्यास से उसकी आत्मा व्याकुल हो रही थी, परन्तु वहां ब्राह्मणों को व्रत करने देखकर । 198 ।। उनको प्रणाम कर कह
 ने लगा । आप यह क्या करते हैं और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है । हे प्रभो, यह सब विस्तार पूर्वक
 वर्णन करें । 199 ।। विप्र ने कहा- यह सत्यनारायण का व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है । उसी व्रत
 के प्रभाव से मुझे धन-धान्य प्राप्त हुआ है । 200 ।। इस व्रत की ऐसी महिमा उस ब्राह्मण से सुनकर काष्ठ क्रेता अत्यन्त

विप्र उवाच-सत्यनारायणस्येदं व्रतं सर्वोप्सितं प्रदम् । तस्य प्रसादान्मे सर्वं धनधान्यादिकं महत् ॥१२०॥
 तस्मादेतत् व्रतं ज्ञात्वा काष्ठकेताति हर्षितः । पणौ जलं प्रसादं च भुक्त्वा स नगरं ययौ ॥१२१॥
 सत्यनारायणं देवं मनसा इत्यचिन्तयत् । काष्ठं विक्रयतो ग्रामे प्राप्यते चाद्ययद्धनम् ॥१२२॥
 तेनैव सत्यदेवस्य करिष्ये ब्रतमुत्तमम् । इति सञ्चिन्त्य मनसा काष्ठ कृत्वा तु मस्तके ॥१२३॥
 जगाम नगरे रम्ये धनिनां यत्र संस्थितिः । तद्दिने काष्ठमूल्यं च द्विगुणं प्राप्तवानसौ ॥१२४॥ ततः
 प्रसन्नहृदयः सुपक्वं कदलीफलम् । शर्कराघृतदुग्धं च गोधूमस्य च चूर्णकम् ॥१२५॥ कृत्वैकत्र
 सपादं च गृहीत्वा स्वगृहं ययौ । ततो बन्धून् समाहूय चकार विधिना व्रतम् ॥१२६॥ तद्व्रतस्य
 प्रभावेण धनपुत्रान्वितोऽभवत् । इह लोके सुखं भुक्त्वा चाऽन्ते सत्यपुरं ययौ ॥१२७॥

प्रसन्न हुआ । प्रसाद भक्षण कर और जल पीकर नगर में चला गया ॥१२१॥ भगवान सत्यनारायण के लिए मन में ऐसा
 विचार करने लगा कि आज इस नगर में लकड़ियों को बेचने से जो धन प्राप्त होगा ॥१२२॥ उसी से सत्यनारायण क
 उल्लम व्रत करूँगा । वहां उस दिन लकड़ी को सिर पर रखकर ॥१२३॥ जहां बड़े-बड़े धनी लोग रहते थे, उस नगर
 में गया । वहां उस दिन लकड़ियों को बेचने से दूना धन प्राप्त हुआ ॥१२४॥ प्रसन्न हृदय हो उसने पके केले, चीनी
 घृत, दूध और गेहूँ का चूर्ण लिया ॥१२५॥ सबको सवाया इकट्ठा कर अपने घर गया । बन्धुओं को बुलाकर विधि पूर्वक
 व्रत किया ॥१२६॥ इस व्रत के प्रभाव से काष्ठ केता धन और पुत्र से सम्पन्न हो इस लोक में सुख भोगकर अंत दे
 सत्य लोक को चला गया ॥१२७॥

सूत उवाच- पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमाः । पुरा चोल्कामुखो नाम
 नृपश्चासीन्महामतिः ॥१२८॥ जितेन्द्रियः सत्यवादी ययौ देवालयं प्रति । दिने दिने धनं दत्त्वा
 द्विजान् सन्तोषयत्सुधीः ॥१२९॥ भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोजवदना सती । भद्रशीलानदीतीरे
 सत्यस्य व्रतमाचरेत् ॥१३०॥ एतस्मिन्नन्तरे तत्र साधुरेकः समागतः । वाणिज्यार्थं बहुधनैरनेकैः
 परिपूतिः ॥१३१॥ नावं संस्थाप्य ततीरे जगाम नृपति प्रति । दृष्ट्वा स व्रतिनं भूपं पप्रच्छ
 विनयान्वितः ॥१३२॥ साधुस्त्वाच-किमिदं कुरुषे राजन् भक्तियुक्तेन चेतसा । प्रकाशं कुरु तत्सर्वं
 श्रोतुमिच्छामि साभ्यतम् ॥१३३॥ राजोउवाच- पूजनं क्रियते साधो विष्णोरतुलतेजसः । व्रतं च
 स्वजनैः सार्धं पुत्राद्यावाप्तिकाभ्यया ॥१३४॥ भूपस्य वचनं श्रुत्वा साधुः प्रोवाच सादरम् । सर्वं कथय

सूतजी ने कहा- हे श्रेष्ठ मुनियों, मैं आगे की कथा कहता हूँ-तुम सुनो, पहले उल्कामुख नामक बुद्धिमान ॥१२८॥
 जितेन्द्रिय और सत्यवादी राजा था, वह धर्मात्मा, नित्य प्रति देव-मन्दिर में जाता था और ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट
 करता था ॥१२९॥ उसकी स्त्री लावण्यवती कमलवदना पतिव्रता थी । वे दोनों भद्रशीला नदी के तट पर सत्यनारायण का
 व्रत करते थे ॥१३०॥ इतने ही में वहां एक साधु नामक वैश्य व्यापार के धनों से भरी ॥१३१॥ नाव
 को उस नदी के किनारे पर टहराकर राजा के पास गया । वहां वैश्य ने राजा को व्रत करते देख नम्रता से पूछा ॥१३२॥
 वैश्य ने कहा- हे राजन! आप मन में अधिक भक्ति युक्त हो क्या करते हैं । यह सब आप मुझसे भी कहें । क्योंकि मेरी
 सुनने की इच्छा है ॥१३३॥ राजा ने कहा-हे साधो! मैं अतुल तेजस्वी भगवान विष्णु का कुटुम्बियों सहित पुत्र आदि की

में राजन्करिष्ये ऽहं तवोदितम् ॥३५॥ ममापि सन्ततिर्नास्ति होतस्माज्जायते ध्रुवम् । ततो निवृत्य
 वाणिज्यात्सानन्दो गृहमागतः ॥३६॥ भार्यायै कथितं सर्वं व्रतं सन्ततिदायकम् । तदा व्रतं
 करिष्यामि यदा में सन्ततिर्भवेत् ॥३७॥ इति लीलावतीं प्राह स्वपत्नींसाधुसत्तमः । एकस्मिन्दिवसे
 तस्य भार्या लीलावती सती ॥३८॥ भर्तृयुक्तानन्दचित्ताऽभवद्धर्मपरायणाः । गर्भिणी साऽभवत्तस्य
 भार्या सत्यप्रसादतः ॥३९॥ दशमे मासि वै तस्याः कन्यारत्नमजायत । दिने दिने सा ववृधे
 शुक्लपक्षे यथा शशी ॥४०॥ नाम्ना कलावती चेति तन्नामकरणं कृतम् । ततो लीलावती प्राह
 स्वामिनं मधुरं वचः ॥४१॥ न करोषि किमर्थं वै पुरा संकल्पितं व्रतम् । साधुस्वाच- विवाहसमये
 कामना से पूजन तथा व्रत करता हूँ ॥३४॥ राजा के वचन सुनकर वैश्य ने सम्मान पूर्वक कहा- हे राजन! इस व्रत का
 समस्त विधान मुझसे भी कहे । मैं भी आपके कथनानुसार व्रत करूँगा ॥३५॥ मुझे भी सन्तति नहीं है । इस व्रत के करने
 से निश्चित होगी । राजा ने सत्यनारायण व्रत का सन्तति-दायक विधान कहा । वह वैश्य व्यापार से निवृत्त हो प्रसन्न होकर
 अपने घर आया ॥३६॥ उसने सन्तान को देने वाले व्रत का वृत्तान्त अपनी स्त्री से कहकर बोला कि, मैं भी व्रत करूँगा ।
 यदि हमारे यहां सन्तान का जन्म होगा ॥३७॥ इस प्रकार श्रेष्ठ वैश्य ने अपनी स्त्री लीलावती से व्रत का सम्पूर्ण महात्म्य
 सुनाया । एक दिन उसकी पतिव्रता स्त्री लीलावती ॥३८॥ पति सहित चित में आनन्दित होकर सांसारिक धर्म में तत्पर हुई
 और सत्यनारायण व्रत की कृपा से गर्भवती हो गयी ॥३९॥ दसवें महीने में एक रत्न रूपी श्रेष्ठ कन्या को जन्म दिया,
 वह कन्या जैसे शुक्ल पक्ष में द्वितीया से पूर्णिमा तक चन्द्रमा बढ़ता है ॥४०॥ उसी तरह बढ़ने लगी, अतः उस कन्या
 का नाम कलावती रखा, तदनन्तर लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वचन कहा ॥४१॥ हे स्वामिन! आपने जिस व्रत का

त्वस्याः करिष्यामि व्रतं प्रिये । १४२ ॥ इति भार्या समाश्वत्स्य जगाम नगरं प्रति । ततः कलावती
 कन्या ववृधे पितृवेश्मनि । १४३ ॥ दृष्ट्वा कन्यां ततः साधुर्नगरे सखिभिः सह । मन्त्रयित्वा द्रुतं
 द्रुतं प्रेषयामास धर्मवित् । १४४ ॥ विवाहार्थं च कन्याया वरं श्रेष्ठं विचारय । तेनाज्ञप्तश्च दूतो ऽस्मै
 कान्वनं नगरं ययौ । १४५ ॥ तस्मादेकं वणिक्पुत्रं समादायागतो हि सः । दृष्ट्वा तु सुन्दरं बाल
 वणिक्पुत्रं गुणान्वितम् । १४६ ॥ ज्ञातिभिर्बन्धुभिः सार्धं परितुष्टैन चेतसा । दत्तवान् साधुपुत्राय
 कन्यां विधिविधानतः । १४७ ॥ ततो भाग्यवशात्तेन विस्मृतं व्रतमुत्तमम् । विवाहसमये तस्यास्तेन
 खष्टो ऽभवत्प्रभुः । १४८ ॥ ततः कालेन नियतो निजकर्मविशारदः । वाणिज्यार्थं ततः शीघ्रं जामातृसहितो
 संकल्प किया था उसे क्यों नहीं करते हैं । वैश्य ने कहा- हे प्रिय! कन्या के विवाह के समय सत्यनारायण का व्रत
 करूँगा । १४२ ॥ इस प्रकार स्त्री को समझाकर वैश्य दूसरे नगर में व्यापार करने चला गया, इधर वह कन्या कलावती अपने
 पिता के घर वृद्धि को प्राप्त होने लगी । १४३ ॥ तदनन्तर उस वैश्य ने नगर की सखियों के साथ खेलती हुई उस कन्या
 को विवाह के योग्य देखा, तो विवाह करने की मंत्रणा कर तुरंत दूत भेज दिया । १४४ ॥ और कहा-कन्या के विवाह के
 लिए श्रेष्ठ वर खोजो, ऐसी आज्ञा पाकर वह दूत कंचनपुर में जा पहुंचा । १४५ ॥ वहां के एक बनिये के पुत्र को लाया,
 बनिया के पुत्र को सुन्दर गुणवान देखकर । १४६ ॥ जाति बन्धुओं सहित वैश्य ने चित्त में संतुष्ट होकर विधि-विधान से
 कन्यादान कर दिया । १४७ ॥ परन्तु भाग्यवशा उस उत्तम व्रत का विस्मरण हो गया । कन्या के विवाह-समय व्रत न करने
 मात्र से भगवान सत्यनारायण खष्ट हो गये । १४८ ॥ कुछ दिनों के बाद कार्य में कुशल वैश्य जामाता सहित व्यापार के

वणिक् । १४६ ।। रत्नसारपुरे रम्ये गत्वा सिन्धुसमीपतः । वाणिज्यमकरोत्साधुर्जामात्रा श्रीमता सह । १५० ।।
 तौ गतौ नगरे रम्ये चन्द्रकेतोर्नृपस्य च । एतस्मिन्नेव, काले तु सत्यनारायणं प्रभुः । १५१ ।।
 भ्रष्टप्रतिज्ञामालोक्य शापं तस्मै प्रदत्तवान् । दारुणं कठिनं चास्य महद्दुःखं भविष्यति । १५२ ।।
 एकस्मिन्दिवसे राज्ञो धनमादाय तस्करः । तत्रैव चागतश्चौरो वणिजौ यत्र संस्थितौ । १५३ ।।
 तत्पश्चाद्भावकान् दूतान् दृष्ट्वा भीतेन चेतसा । धनं संस्थाप्य तत्रैव स तु शीघ्रमलक्षितः । १५४ ।।
 ततो दूताः समायाताः यत्रास्ते सज्जनो वणिक् । दृष्ट्वा नृपधनं तत्र बद्ध्वाऽऽनीतौ वणिकसुतौ । १५५ ।।
 हर्षेण धावमानाश्च ऊचुर्नृपसमीपतः । तस्करौ द्वौ समानीतौ विलोक्याज्ञापय प्रभो । १५६ ।।
 राज्ञाऽऽज्ञप्तस्ततः शीघ्रं दृढं बद्ध्वा तु ताबुभौ । स्थापितौ द्वौ माहदुर्गे कारागारे विचारतः । १५७ ।।
 तत्रैव च ल पडा । १४६ ।। समुद्र के समीप रत्नसार पुर में जाकर अपने श्रीमान जामाता के साथ व्यापार करने लगा । १५० ।।
 तत्पश्चात् दोनों राजा चन्द्रकेतु के रमणीय नगर में गये उसी समय सत्यनारायण भगवान ने । १५१ ।। साधू को भ्रष्ट-प्रतीज्ञ
 देखकर श्राप दे दिया कि तुम्हें कठिन दुःख होगा । १५२ ।। एक दिन राजा के धन को लेकर चोर वहां ही आकर प्राप्त हुए,
 जहां दोनों वैश्य रहते थे । १५३ ।। उसी समय राजा के दूतों को वेग से आते देख मन में भयभीत हो धन को उसी स्थान
 में छोड़ चोर तुरन्त भाग गये । १५४ ।। इधर दूत सज्जन वैश्यों के निकट आये, वहां राजा के धन को रखा देख उन
 दोनों को क्रोध बांध कर ले आये । १५५ ।। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर दूतों ने कहा- हे प्रभो! हम चोरों
 को पकड़ लिये हैं, आज्ञा दीजिए । १५६ ।। राजा की आज्ञा पाकर दूतों ने बिना विचारे ही उन दोनों को बांधकर जेलखाने
 में भेज दिया । १५७ ।। सत्यनारायण की माया से उनका कहना नहीं सुना और राजा चन्द्रकेतु ने उनका सब धन ले

मायया सत्यदेवस्य न श्रुतं कैस्तयोर्वचः । अतस्तयोर्धनं राज्ञा गृहीतं चन्द्रकेतुना ॥१५८॥ तच्छापाच्च
 तयोर्गेहे भार्या वैवातिदुःखिता । चौरैणापहतं सर्वं गृहे यच्च स्थितं धनम् ॥१५९॥ आधि-व्याधि-
 समायुक्ता क्षुत्पिपासातिदुःखिता । अन्निचिन्तापरा भूत्वा बभ्राम च गृहे गृहे ॥१६०॥ कलावती तु
 कन्यापि बभ्राम प्रतिवासरम् । एकस्मिन्दिवसे जाता क्षुधार्ता द्विजमन्दिरम् ॥१६१॥ गत्वाऽपश्यद्
 व्रतं तस्य सत्यनारायणस्य च । उपविश्य कथां श्रुत्वा वरं प्रार्थितवत्यापि ॥१६२॥ प्रसादभक्षणं
 कृत्वा ययौ राज्ञौ गृहं प्रति । माता कलावती कन्यां कथयामास प्रेमतः ॥१६३॥ पुत्रि राज्ञौ स्थिता
 कुत्र किं ते मनसि वर्तते । कन्या कलावती प्राह मातरं प्रति सच्चरम् ॥१६४॥ द्विजालये व्रतं
 मातर्दृष्ट्वा वाञ्छितसिद्धिदम् । तर्षुत्वा कन्यकावाक्यं व्रतं कर्तुं समुद्यता ॥१६५॥ सा तदा तु
 लिया ॥१५८॥ इधर भगवान् के श्राप से वैश्य की स्त्री अति दुःखित हो गयी और जो कुछ घर में रखा था वह वीरों ने
 चुरा लिया ॥१५९॥ आधि-व्याधि, भूख-प्यास और अन्न की चिंता से दुःखी होकर वह घर-घर फिरने लगी, कलावती भी
 घर-घर भिक्षा मांगने लगी ॥१६०॥ एक दिन वह कन्या क्षुधा से व्याकुल हो किसी ब्राह्मण के घर गयी, वहां जाकर उसने
 सत्यनारायण का व्रत देखा ॥१६१॥ वहां बैठकर कथा सुनी उसने वर मांगा और सत्यनारायण का प्रसाद भक्षण कर रात्रि
 में घर आयी ॥१६२॥ उसकी माता कलावती से प्रेम सहित पूछने लगी-हे पुत्री, इतनी रात्रि तक तुम कहाँ थी और तेरे
 पन में क्या है ॥१६३॥ तुरन्त ही कन्या ने माता से कहा-मातः, मैंने ब्राह्मण के घर मनोरथ सिद्ध करनेवाला व्रत देखा
 है ॥१६४॥ कन्या के वचन सुन कर वैश्य की स्त्री प्रसन्न हो सत्यनारायण व्रत करने को उद्यत हुई ॥१६५॥ उस पतिवला

वणिगभार्या सत्यनारायणस्य च । व्रतं चक्रे सैव साध्वी बन्धुभिः स्वजनैः सह ।।६६ ।। भर्तृजामातरौ
 क्षिप्रमागच्छेतां स्वमाश्रमम् । इति दिव्यवरं वब्रे सत्यदेवं पुनः पुनः ।।६७ ।। अपराधं च मे
 भर्तृजामातुः क्षन्तुमर्हसि । व्रतेनानेन तुष्टोऽसौ सत्यनारायणः पुनः ।।६८ ।। दर्शयामास स्वप्नं हि
 चन्द्रकेतु नृपोत्तमम् । वन्दिनौ मोचय प्रातर्वणिजौ नृपसत्तम ।।६९ ।। देयं धनं च तत्सर्वं गृहीतं
 यत्त्वयाऽधुना । नो चेत्त्वां नाशयिष्यामि सराज्यधनपुत्रकम् ।।७० ।। एवमाभाष्य राजानं ध्यानगम्योऽभवत्
 प्रभुः । ततः प्रभातसमये राजा च स्वजनैः सह ।।७१ ।। उपविश्य सभामध्ये प्राह स्वप्नं जनं प्रति ।
 बद्धौ महाजनौ शीघ्रं मोचय द्वौ वणिकसुतौ ।।७२ ।। इति राज्ञो वचः श्रुत्वा मोचययित्वा महाजनौ ।

ने बन्धु-बान्धवों सहित सत्यनारायण का व्रत किया और वर माँगा कि मेरे पति और जामाता शीघ्र घर चले
 आवें ।।६६-६७ ।। आप मेरे स्वामी और जमाता का अपराध क्षमा करें, इस व्रत के करने से भगवान् सत्यनारायण फिर
 प्रसन्न हो गये ।।६८ ।। भगवान् सत्यनारायण ने श्रेष्ठ राजा चन्द्रकेतु को स्वप्न दिया कि हे राजन्! बन्दीगुमें उपस्थित दोनों
 वैश्यों को भोर होते ही छोड़ दो ।।६९ ।। और जो कुछ तुमने धन लिया है वह भी तुरन्त दे दो, नहीं तो धन और राज्य
 सहित तेरा नाश कर दूँगा, यों कह कर भगवान् प्रभु अर्न्तध्यान हो गये । तद्नन्तर प्रातःकाल होते ही राजा ने स्वजनो
 सहित ।।७०-७१ ।। सभा के मध्य में लोगों से अपना रात वाला स्वप्न कहा और आज्ञा दी कि बन्धन में पड़े दोनों महाजन
 वैश्यों को छोड़ दो ।।७२ ।। राजा के वचन सुन कर राजपुरुष महाजन वैश्यों को बन्धन से मुक्त कर नम्रता से राजा के

सामानीय नृपस्याग्रे प्राहुस्ते विनयान्विताः । १७३ ॥ आनीतो द्वौ वणिक्पुत्रौ मुक्त्वा निगडबन्धनात् ।
ततो महाजनौनत्वा चन्द्रकेतुं नृपोत्तमम् । १७४ ॥ स्मरन्तौ पूर्ववृत्तान्तं नोचतुर्भयविहत्तौ । राजा
वणिक्सुतौ वीक्ष्य वचः प्रोवाच सादरम् । १७५ ॥ दैवात् प्राप्त महद्दुःखमिदानीं नास्ति वै भयम् ।
तदा निगडसन्त्यागं क्षौरकर्माद्यकारयत् । १७६ ॥ वस्त्रालङ्कारक दत्त्वा परितोष्य नृपश्चतौ । पुरस्कृत्य
वणिक्पुत्रौ वचसाऽतोषयद् भृशम् । १७७ ॥ पुराऽऽनीतं तु यद् द्रव्यं द्विगुणिकृत्य दत्तवान् ।
प्रोवाच तौ ततो राजा गच्छ साधो निजाश्रमम् । १७८ ॥ राजानं प्रणिपत्याह गन्तव्यं त्वत्प्रसादतः ।
इत्युक्त्वा तौ महावेश्यौ जगमतुः स्वगृह प्रति । १७९ ॥ सूत उवाच- यात्रां तु कृतवान् साधु-
र्मङ्गलायनपूर्विकाम् । ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययौ । १८० ॥ कियद् दूरे गते साधौ
समक्ष लाकर कहने लगे । १७३ ॥ दोनों वैश्यों को बन्धन से मुक्त कर ले आये हैं, दोनों महाजन वैश्यों ने चन्द्रकेतु को
प्रणाम कर । १७४ ॥ पूर्व वृत्तान्त का स्मरण कर, भय से व्याकुल हो कुछ भी नहीं कहा । राजा वणिक्पुत्रों से आदर पूर्वक
कहने लगे । १७५ ॥ अपने भाग्य से महादुःख प्राप्त किया । अब तुम्हें कुछ भय नहीं है, यों कहकर बेड़ियाँ कटवा कर
क्षौरकर्मादि करवाया । १७६ ॥ राजा ने वस्त्र, आभूषण देकर उनको आदर सहित वचनों से अत्यन्त सन्तुष्ट किया । १७७ ॥
और जो कुछ धन पहले ले लिया था उसका दूना धन दिया । फिर राजा ने उन महाजनों से कहा-हे महाजनों, अपने घर
जाइये । १७८ ॥ राजा को प्रणाम कर वैश्यों ने कहा-अब आपकी कृपा से चले जायेंगे । यों कह कर महावैश्य अपने घर
को चले । १७९ ॥ सूत जी बोले-साधु वैश्य ने प्रथम मंगल विधान कर यात्रा की वह ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर

सत्यनारायणप्रभुः । जिज्ञासां कृतवान् साधोकिमस्ति तव नौस्थितम् ॥८९॥ ततो महाजनौ मत्तौ
 हेतया च प्रहस्य वै । कथं पृच्छसि भो दण्डिन् मुद्रां नेतुं किमिच्छसि ॥८२॥ लतापत्रादिकं चैव
 वर्तते तरणौ मम । निष्ठुरं च वचः श्रुत्वां सत्यं भवतु ते वचः ॥८३॥ एवमुक्त्वा गतः शीघ्रं दण्डी
 तस्य समीपतः । कियद् दूरे ततो गत्वा स्थितः सिन्धुसमीपतः ॥८४॥ गते दण्डिनि साधुश्च
 कृतनित्यक्रियस्तदा । उत्थितां तरणीं दृष्ट्वा विस्मयं परमं ययौ ॥८५॥ दृष्ट्वा लतादिकं चैव
 मुर्च्छितो न्यपतद् भुवि । तब्धसंज्ञो वणिक्पुत्रस्ततश्चिन्तान्वितोऽभवत् ॥८६॥ तदा तु दुहितुः
 कान्तो वचनं वेदमब्रवीत् । किमर्थं क्रियते शोकः शापो दत्तश्च दण्डिना ॥८७॥ शक्यतेऽनेन सर्वं
 हि कर्तुं चाऽत्र न संशयः । अतस्तच्छरणं याहि वाञ्छितार्थो भविष्यति ॥८८॥ जामातुर्वचनं
 श्रो चत्वा ॥८०॥ उन वैश्यों के थोड़ी दूर पहुँचने पर सत्यनारायण प्रभु ने जिज्ञासा की कि, तेरी नाव में क्या भरा
 है ॥८१॥ मदीन्मत वैश्यों ने हंस कर कहा - हे दण्डिन्, आप क्यों पूछते हैं? क्या आप रूपया लेने की इच्छा करते
 हैं ॥८२॥ हमारी नौका में लता-पत्र है । भगवान् ने ऐसे कठोर वचन सुनकर कहा-तुम्हारा कहना सत्य हो ॥८३॥
 भगवान् दण्डी ऐसे कह कर तुरन्त उसके पास से हट गये और थोड़ी दूर जाकर समुद्र के तीर पर बैठ गये ॥८४॥ दण्डी
 सन्यासी के चले जाने पर वैश्य ने सन्ध्या आदि कर्म किया । तब नाव को ऊँची उठी देख अत्यन्त विस्मय में पड़
 गया ॥८५॥ उसमें लता-पत्र देखकर वह मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ा । जब वैश्य को वेत हुआ तो वह अत्यन्त चिन्ता
 करने लगा ॥८६॥ उस समय उसके जामाता ने कहा-आप शोक क्यों करते हैं? भगवान् दण्डी ने ही शाप दिया है ॥८७॥
 दंडी मग्न कुछ करने को समर्थ है । उन्हीं की शरण में चले तो मनोरथ सिद्ध होगा ॥८८॥ वैश्य जामाता के वचन सुन

श्रुत्वा तत्सकाशं गतस्तदा । दृष्ट्वा च दण्डिनं भक्त्या नत्वा प्रोवाच सादरम् ॥८६॥ क्षमस्य
 चापराधं मे यदुक्तं तव सन्निधौ । एवं पुनः पुनर्नत्वा महाशोकाकुलोऽभवत् ॥८७॥ प्रोवाच
 वचनं दण्डी विलपन्तं विलोक्य च । मा रोदीः शृणु मद्वाक्यं मम पूजाबहिर्मुखः ॥८९॥ ममाज्ञया
 च दुर्बुद्धे लब्धं दुःखं मुहुर्मुहुः । तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं स्तुतिं कर्तुं समुद्यतः ॥९२॥ साधुस्वाच-
 त्वन्मायामोहिताः सर्वे ब्रह्माद्यास्त्रिदिवोकसः । न जानन्ति गुणान् रूपं तवाश्चर्यभिदं प्रभो ॥९३॥
 मूढोऽहंत्वां कथं जाने मोहितस्तव मायया । प्रसीद पूजयिष्यामि यथाविभवविस्तरैः ॥९४॥ पुरा
 वित्तं च तत्सर्वं त्राहि मां शरणागतम् । श्रुत्वा भक्तियुतं वाक्यं परितुष्टो जनार्दनः ॥९५॥ वरं च
 कर तुरन्त ही भगवान् दण्डी के निकट गया और उनको देख भक्ति-भाव से प्रणाम कर आदर से कहने लगा ॥८६॥
 मैंने जो कुछ आपके सामने कहा था वे सब क्षमा करें, यों बारम्बार कहता हुआ शोक से व्याकुल हो गया ॥८७॥ उसको
 खदन करते देख दण्डी स्वामी ने कहा-हे वैश्य, खदन मत करो, मेरे वचन को सुनो । मेरी आज्ञा तथा पूजा से बहिर्मुख
 हो जाने से ॥८९॥ हे दुर्बुद्धे! तुझे बारम्बार दुःख हुआ । भगवान् के ऐसे वचन सुनकर वैश्य स्तुति करने लगा ॥९२॥
 हे प्रभो, आपकी माया से ब्रह्मादि देवता भी मोहित होकर आपके गुण और रूप को नहीं जान सके ॥९३॥ ती आपकी
 माया से मोहित मैं कैसे आपको जान सकता हूँ, अब आप प्रसन्न हों, मैं आपका अपने वित्तानुसार पूजन करूँगा ॥९४॥
 मेरी नाव को पहलने की तरह धन से पूर्ण करें और आप गुप्त शरणागत की रक्षा भी करें, ऐसी भक्तियुक्त वाणी सुनकर
 जनार्दन भगवान् विष्णु प्रसन्न हो गये ॥९५॥ मनोवाञ्छित वरदान देकर भगवान् तत्काल वहाँ से अन्तर्धान हो गये ।

वाञ्छितं दत्त्वा तत्रैवान्तर्दधे हरिः । ततो नौकां समास्त्रह्य दृष्ट्वा वित्तप्रपूरितम् ॥६६॥ कृपया
सत्यदेवस्य सफलं वाञ्छितं मम । इत्युक्त्वा स्वजनैः सार्द्धं पूजां कृत्वा यथाविधि ॥६७॥ हर्षण
चाभवत्पूर्णः सत्यदेवप्रसादतः । नाव संयोज्य यत्नेन स्वदेशगमनं कृतम् ॥६८॥ साधुर्जामातरं
प्राह पश्य रत्नपुरीं मम । दूतं च प्रेषयामास निजवित्तस्य रक्षकम् ॥६९॥ दूतोऽसौ नगरे गत्वा
साधु भार्यां विलोक्य च । प्रोवाच वाञ्छितं वाक्यं नत्वा बद्धाञ्जलिस्तदा ॥१९००॥ दूतोऽसौ
नगरस्यैव जामात्रा सहितो वणिक् । आगतो बन्धुवर्गेश्च वित्तैश्च बहुभिर्युतः ॥१९०१॥ श्रुत्वा
दूतमुखाद्वाक्यं महाहर्षवती सती । सत्यपूजां ततः कृत्वा प्रोवाच तनुजां प्रति ॥१९०२॥ ब्रजामि
शीघ्रमागच्छ साधुसन्दर्शनाय च । इति मातृवचः श्रुत्वा व्रतं कृत्वा समाप्य च ॥१९०३॥ प्रसादं च
तदनन्तर वैश्य नाव के ऊपर चढ़कर नाव को धन से भरी देखा ॥६६॥ और कहा-सत्यनारायणजी की कृपा से मेरा
मनोरथ सफल हो गया, यों कहकर साथियों के सहित विधिवत् पूजन कर ॥६७॥ सत्यनारायण की कृपा से अति प्रसन्न
यत्नपूर्वक नाव को सहेज अपने देश को चल दिया ॥६८॥ अपने जामाता से वैश्य कहने लगा-हमारी रत्नपुरी नाम वाली
नगरी को देखो, अपने धन के रक्षक दूत को अपने घर भेजा ॥६९॥ वह दूत नगर में बनिये की स्त्री को देख प्रणाम
कर अभीष्ट वचन कहने लगा ॥१९००॥ जामाता, बान्धव एवं धन सहित सेठजी नगर के निकट आकर प्राप्त हुए
हैं ॥१९०१॥ दूत के मुख से ऐसी वाणी सुनकर वह पतिव्रता अत्यन्त प्रसन्न हुई और वह सत्यनारायण की पूजा से निवृत्त
हो अपनी कन्या से बोली ॥१९०२॥ हे पुत्री, मैं सेठजी के दर्शन करने जाती हूँ, तुम शीघ्र आना, माता के ऐसे वचन
सुन और चट-पट व्रत समाप्त कर ॥१९०३॥ प्रसाद का त्याग कर वह भी पति के दर्शन को चली ॥ इसी से सत्यनारायण

परित्यज्य गता सापि पतिं प्रति । तेन रूष्टोः सत्यदेवो भर्तारं तरणीं तथा ॥ १९०४ ॥ संहत्य च
 धनैः सार्धं जले तस्य निमज्जयत् । ततः कलावती कन्या न विलोक्य निज पतिम् ॥ १९०५ ॥
 शोकेन महता तत्र रूदन्ती चापतद् भुवि । दृष्ट्वा तथा विधां नौकां कन्यां च बहुदुःखिताम् ॥ १९०६ ॥
 भीतेन मनसा साधुः किमाश्चर्यमिदं भवेत् । चिन्त्यमानाश्च ते सर्वे बभूवुस्तिरिवाहकाः ॥ १९०७ ॥
 ततो लीलावती कन्यां दृष्ट्वा सा विह्वलाऽभवत् । विललापातिदुःखेन भर्तारं वेदमब्रवीत् ॥ १९०८ ॥
 इदानीं नौकया सार्धं कथं सोऽभूदलक्षितः । न जाने कस्य देवस्य हेलया चैव तत्कृता ॥ १९०९ ॥
 सत्यदेवस्य महात्म्यं ज्ञातुं वा केन शक्यते । इत्युक्त्वा विललापैव ततश्च स्वजनैः सह ॥ १९१० ॥
 ततो लीलावती कन्यां क्रोडे कृत्वा सरोद ह । ततः कलावती कन्यां नष्टे स्वामिनि दुःखिता ॥ १९११ ॥
 भगवान् रूष्ट हो पति-युक्त नाव को ॥ १९०४ ॥ धन सहित जल में डुबा दिया । कलावती कन्या तट पर अपने पति को न
 देखकर ॥ १९०५ ॥ महाशोक से रूदन करती हुई भूमि पर गिर पड़ी । अलक्षित हुई नाव और महादुःखी कन्या को
 देखकर ॥ १९०६ ॥ वैश्य मन में अत्यन्त भयभीत होकर कहने लगी । यह क्या आश्चर्य हुआ । सब मल्लाह भी चिन्ता करने
 लगे ॥ १९०७ ॥ तदनन्तर लीलावती कन्या को दुःखी देखकर अत्यन्त व्याकुल हो दुःख से रुदन करने लगी, फिर पति से
 कहा ॥ १९०८ ॥ अभी नौका सहित अलक्षित कैसे हो गये? मैं नहीं जानती कौन से देव के प्रकोप से नाव डूब गई ॥ १९०९ ॥
 सत्यनारायण के माहात्म्य को जानने की शक्ति किस्से हैं, यों कह कर स्वजनों सहित अति विलाप करने लगी ॥ १९१० ॥
 लीलावती कन्या को गोद में उठा कर रुदन करने लगी और कलावती कन्या स्वामी के नष्ट होने पर अत्यन्त दुःखित

गृहीत्वा पादुके तस्यानुगन्तु च मनो दधे । कन्यायाश्चरितं दृष्ट्वा सभार्यः सज्जनो वणिक् ॥ १९९२ ॥
 अतिशोकेन सन्तप्तश्चिन्तयामास धर्मवित् । हतं वा सत्यदेवेन भ्रान्तो ऽहं सत्यमायया ॥ १९९३ ॥
 सत्यपूजां करिष्यामि यथाविभवविस्तरैः । इति सर्वान्समाहूय कथयित्वा मनोरथम् ॥ १९९४ ॥ नत्वा
 च दण्डवद् भूमौ सत्यदेवं पुनः पुनः । ततस्तुष्टः सत्यदेवो दीनानां परिगलकः ॥ १९९५ ॥ जगाद
 वचनं चैनं कृपया भक्तवत्सलः । त्यक्त्वा प्रसादं तव कन्या पतिं द्रष्टुं समागताः ॥ १९९६ ॥
 अतो ऽदृष्ट्वा ऽभवत्तस्याः कन्यकायाः पतिर्ध्रुवम् । गृहं गत्वा प्रसादं च भुक्त्वा सायाति चेत्युनः ॥ १९९७ ॥
 लब्धभर्त्रो सुता साधो भविष्यति न संशयः । कन्यका तादृशं वाक्यं श्रुत्वा गगनमण्डलात् ॥ १९९८ ॥
 हो ॥ १९९९ ॥ अपने पति की खड़ाऊँ ले सती होने के लिए मन में निश्चय किया । कन्या के ऐसे चरित्र को देखकर धर्मवेत्ता
 वैश्य अपनी स्त्री सहित ॥ १९९२ ॥ अत्यन्त शोक से सन्तप्त हो चिन्ता करने लगा, या तो नाव को सत्यनारायण ने हर लिया
 है या मैं ही सत्यनारायण की महामाया से मोहित हो रहा हूँ । मैं धन और विभव के अनुसार सत्यनारायण की पूजा
 करूँगा । उसने अपना यह मनोरथ सबको बुलाकर सुनाया ॥ १९९३-१९९४ ॥ बारम्बार पृथ्वी पर दण्ड के समान गिरकर
 सत्यनारायण को प्रणाम किया । तो दीन जनों के पालन करनेवाले सत्यनारायण भगवान् प्रसन्न हो गये ॥ १९९५ ॥ भक्तों के
 पालन करने वाले भगवान् ने साधु को आकाश वाणी द्वारा कहा-तेरी कन्या प्रसाद को परित्याग कर अपने पति को देखने
 चली आई है ॥ १९९६ ॥ इसी कारण इस कन्या का पति अलक्षित हो गया है । यदि यह घर जाकर प्रसाद का भक्षण कर
 फिर आवे तो ॥ १९९७ ॥ हे वैश्य! तेरी कन्या का पति मिल जायेगा । कन्या ने आकाश-मण्डल से ऐसा वचन सुन ॥ १९९८ ॥

शिष्टं तदा गृहं गत्वा प्रसादं च वृथांज सा । तत्पश्चात् पुनरागत्य ददर्श स्वप्नं पतिम् ॥११६॥
 ततः कलावती कन्या जगाद पितरं प्रति । इदानीं च गृहं याहि विलम्बं कुरुषे कथम् ॥१२०॥
 तच्छ्रुत्वा कन्यकावाक्यं सन्तुष्टोऽधुद वीणकमुतः । पूजनं सत्यदेवस्य कृत्वा विधिधियानतः ॥१२१॥
 धनेवंशुगणैः सार्धं जगापु निजर्षन्दिरम् । पीर्षासायां च संक्रान्ती कृतवान् सत्यस्य पूजनम् ॥१२२॥
 इह लोके सुखम् भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययौ । इति श्रीस्कन्दपुराणे रेवाखण्डे सत्यनारायण
 व्रतकथायां चतुर्थो अध्यायः ।

पुनश्च परमा प्रसाद का धरणा कर फिरे लीट कर आई तो उसने पति को देखा ॥११६॥ कलावती कन्या ने पितर
 से कहा हे पिता! अब घर चले, विलम्ब क्यों करने है ॥१२०॥ कन्या के पैसे बचन सुन सेठजी विधान पूर्वक सत्यनारायण
 का पूजन कर ॥१२१॥ वंशुगणों सहित अपने निवास स्थान को गये, वीणकपुत्र सन्तुष्ट हो पीर्षासायी और संक्रान्ति को
 पदेव सत्यनारायण का पूजन करने लगा ॥१२२॥ श्री सत्यनारायण की कृपा से इस लोक में सुख योग कर अन्य वे वैकुण्ठ
 को चला गया ।

इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थोऽध्यायः ॥



अथ उवाचः

भूत उवाच- अथान्यच्च प्रवक्ष्यामि शृणुष्वं धूमिसप्तमाः । आसीन्नुद्वेगश्च नो राजा
प्रजापालनतत्परः ॥ ११ ॥ प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखपवाप सः । एकदा स वनं गत्वा श्वशुरेवमभ्युज-
। १२ ॥ आगत्य वटपूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनम् । गोपाः कुर्वन्ति संतुष्टा गिन्तिपुक्ताः सवन्भव-
। १३ ॥ राजा दृष्ट्वा तु दूरेण न गतो न ननाप सः । ततो गोपगणाः सर्वे प्रसादं नृपसन्निवौ ॥ १४ ॥
संश्राप्य पुनरागत्य भुक्त्वा सर्वे यथोपि सतम् । ततः प्रसादं सत्ययज्य राजा दुःखपवाप सः ॥ १५ ॥
तस्य पुनश्चातं नष्टं धनधान्यादिकं च यत् । सत्यदेवेन तत्सर्वं नाशितं पर्षनिश्चतम् ॥ १६ ॥

भूत नो ने कहा- हे धूमिश्रेष्ठ! इसके अनन्तर और भी वर्णन करता हूँ-तुम सुनो! प्रजा का राजन-गोपण करने
के निमित्त एक नृपराज्य नाम का राजा था ॥ ११ ॥ उसने भी सत्यनारायण के प्रसाद का त्याग कर दुःख पाया था । एक समय
उस वन में गया और बहुत प्रकार के पशुओं को पार कर ॥ १२ ॥ बरगद के नीचे बैठकर देखा कि पकि-पुत्र से सन्तुष्ट
पशुओं काश्रयो धिक्त्वा सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं ॥ १३ ॥ उसी समय राजा अपने अंठकार से पूजन देखा का
की शरीर नहीं गया और प्रणाम भी न किया । सब लोग सत्यनारायण के प्रसाद को राजा के निकट ॥ १४ ॥ राजका
दुःखानुसार प्रसाद ग्रहण करने लगे । परन्तु राजा उस प्रसाद का परित्याग कर अपने घर चला गया ॥ १५ ॥ उसके लो पुत्र

अतस्तत्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनम् । मनसातुविनिश्चित्यययौगोपालसन्निधौ । १७ ।। ततोऽसौ
 सत्यदेवस्यपूजांगोपणैः सह । भक्ति-श्रद्धान्वितो भूत्वा चकार विधिना नृपः । १८ ।। सत्यदेवप्रसादेन
 धनपुत्रान्वितोऽभवत् । एतेचान्येच वहवो कथां श्रुत्वाव्रतंचरेत् ।। इह लोके सुखं भुक्त्वा
 पश्चात्सत्यपुरं ययौ । १९ ।। य इदं कुर्वते सत्यव्रतं परमदुर्लभम् । श्रुणोतिचकथांपुण्यांभक्तियुक्तांपल-
 प्रदाम् । १९० ।। धनधान्यादिकंतस्य भवेत् सत्यप्रसादतः । दरिद्रो लभते वित्तं बद्धो मुच्येत बन्धनात्
 । १९१ ।। भीतो भयात्प्रमुच्येत सत्यमेव न संशयः । ईप्सितंचफलंभुक्त्वाचान्तेसत्यपुरंब्रजेत् । १९२ ।।
 तथा जो धन-धान्यादिक था सब नष्ट हो गया । राजा ने अपने मन में बिचार किया कि । १९ ।। सत्यदेव ने ही धन और
 मेरे पुत्रों को नष्ट किया, यह ठीक निश्चय है । १७ ।। तो अब वहीं चलना चाहिए जहाँ सत्यनारायण का पूजन हो रहा
 था । मन में ऐसा निश्चय कर ज्वालों के समीप गया । १८ ।। वहाँ भक्ति और श्रद्धासे ज्वालों के साथ उस राजा ने विधिपूर्वक
 सत्यनारायण का पूजन किया । वह सत्यदेव की कृपा से पुनः धन तथा पुत्रों से युक्त हो गया । इस लोक में सुख भोग
 अन्त समय वैकुण्ठ को चला गया । १९ ।। जो परम् दुर्लभ सत्यनारायण व्रत को करता है और भक्ति युक्त हो इस
 फलदायिनी कथा को सुनता है । १९० ।। उसे सत्यनारायण की कृपा से धन-धान्य की प्राप्ति होती है, दरिद्र को धन की
 प्राप्ति और बन्धन से बँधे प्राणी बन्धन से विमुक्त होते हैं । १९१ ।। भयभीत पुरुष भय से छूट जाते हैं, इसमें सन्देह नहीं ।
 व्रतकर्ता और श्रोता संसार में मनोऽभिलषित पदार्थों को पाकर मृत्यु के बाद सत्य लोक चले जाते हैं । १९२ ।। हे ब्राह्मणो

इतिवःकथितंविप्राःसत्यनारायणव्रतम् । यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्योमुक्तो भवतिमानवः । 193 ।। विशेषतः कलियुगे सत्यपूजा फलप्रदा । केचित्कालं वदिष्यन्ति सत्यमीशंतमेवच । 194 ।। सत्यनारायणं केचित्सत्यदेवं तथापरे । नानारूपधरो भूत्वा सर्वेषामीप्सितप्रदः । 195 ।। भविष्यतिकलौसत्य-व्रतस्वपीसनातनः । श्रीविष्णु-नाधृतंरूपं सर्वेषामीप्सित-प्रदम् । 196 ।। य इदं पठते नित्यं शृणोति मुनिसत्तमाः । तस्य नश्यन्ति पापानि सत्यदेव प्रसादतः । 197 ।। व्रतं यैस्तु कृतं सर्वैः सत्यनारायणस्य च । तेषां त्वपरजन्मानि कथयामि मुनीष्वराः । 198 ।। शतानन्दो महाप्राज्ञः सुदामा ब्राह्मणोऽभवत् । तस्मिन् जन्मनि श्रीकृष्णं ध्यात्वा मोक्षमवाप्नुयात् ह । 199 ।। काष्ठभारवहो भिल्लो गुहराजो बभूव ह । तस्मिन् जन्मनि मैत्रे तुमसे सत्यनारायण व्रत का वर्णन किया । जिसके करने से मनुष्य समस्त दुःखों से मुक्त हो जाते हैं । 193 ।। सत्यनारायण की पूजा कलियुग में विशेष फलदायिनी है । भगवान् को कोई काल, कोई सत्य, कोई ईश, 194 ।। कोई सत्यनारायण, कोई सत्यदेव कहेंगे । इस प्रकार अनेक रूपों को धारण कर भगवान् सबके मनोरथ पूर्ण करते हैं । 195 ।। कलियुग में सत्यरूपी भगवान् का अवतार होगा, जो मनुष्य कथा का पाठ करते हैं, या जो स्मरण करते हैं, सत्यनारायण की कथा का व्रत किया है उनके दूसरे जन्मों का वृत्तान्त कहता हूँ । 196 ।। दूसरे जन्म में शतानन्द परम बुद्धिमान सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ तबनें श्रीकृष्ण का ध्यान कर मोक्ष पाया । 197 ।। काष्ठभार वाहक जो भिल्ल था, वह गुहराज निषाद हुआ उस जन्म में श्रीरामचन्द्रजी का भजन कर वह मोक्ष को प्राप्त हुआ । 198 ।। उल्कामुख राजा दूसरे जन्म में महाराज

श्रीरामं सेव्य मोक्षं जगाम ह ।।२०।। उल्कामुखो महाराजो नृपो दशरथो ऽभवत् । श्रीरंगनाथ
सम्पूज्य श्रीवैकुण्ठं तदागतम् ।।२१।। धार्मिकः सत्यसन्धश्च साधुर्मोरध्वजो ऽभवत् । देहार्ध
क्रकवैशिष्ट्वा दत्त्वा मोक्षमवाप्नुयात् ह ।।२२।। तुङ्गध्वजो महाराजः स्वायम्भुरभवत्किल । सर्वान्
भागवतान् कृत्वा श्रीवैकुण्ठं तदाऽगमत् ।।२३।।

इति श्रीस्कन्दपुराणे रेवाखण्डे श्रीसत्यनारायण व्रतकथायां पंचमोऽध्यायः ।।

दशरथ हुए, जो रंगनाथ जी का पूजन कर वैकुण्ठ को गये ।।२१।। साधुनामक वैश्य भी सत्यप्रतिज्ञ मोरध्वज नाम का राजा
हुआ जो आराम से स्त्री-पुत्र द्वारा आधे शरीर को चीर कर मोक्ष को प्राप्त हुआ ।।२२।। तुङ्गध्वज राजा स्वायम्भुव मनु
हूए, जो भगवान सन्धवी कर्म कर वैकुण्ठ को प्राप्त किए । जो मनुष्य सत्यनारायण की कथा कहता अथवा श्रवण करता
है । वह सांसारिक बन्धनों से मुक्ति पा जाता है, इसमें कुछ सन्देह नहीं करना चाहिए ।।२३।।

श्रीसत्यनारायण व्रतकथायां पंचमोऽध्यायः ।



कथा के पश्चात् हवन- मुष्टिका बँधे हाथ के बराबर लम्बी-चौड़ी वेदी गोबर से लीप कर आम या पलाश की लकड़ी रख अग्नि स्थापन कर यजमान हवन करने वाले ब्राह्मणों का वरण करे, दक्षिणा देवे। पहिले ब्रह्महस्त के तीन आहुतियाँ दे। 1. ऊँ प्रजापतये नमः। इदं प्रजापतये स्वाहा। 2. - ऊँ इन्द्राय नमः इदं इन्द्राय स्वाहा। 3. - ऊँ अग्नये नमः इदं अग्नये स्वाहा। इनके बाद साकलों की प्रथम दो आहुति अधिदेवता और प्रत्यधिदेवता को देवे। 1. ऊँ अग्न्यधिदेवताभ्यो नमः। इदमग्नये स्वाहा। 2. - ऊँ प्रजापति-प्रत्यधिदेवताभ्यो नमः। इदं प्रजापतये स्वाहा। पश्चात् गणेश, गौरी नवग्रह (सूर्य, चन्द्रमा, इत्यादि), वरुण आदि को क्रमशः आहुति देवे। ऊँ गौर्ये नमः। इदं गौर्ये स्वाहा। 3. - ऊँ सूर्याय नमः। इदं सूर्याये स्वाहा। 4. - ऊँ चन्द्रमसे नमः। इदं चन्द्रमाय स्वाहा। 5. - ऊँ मंगलाय नमः इदं मंगलाय स्वाहा। 6. - ऊँ बुधाय नमः। इदं बुधाय स्वाहा। 7. - ऊँ वृहस्पतये नमः। इदं वृहस्पतये स्वाहा। 8. - ऊँ शुक्राय नमः। इदं शुक्राय स्वाहा। 9. - ऊँ शनये नमः। इदं शनये स्वाहा। 10. - ऊँ राहवे नमः। इदं राहवे स्वाहा। 11. - ऊँ केतवे नमः। इदं केतवे स्वाहा। 12. - ऊँ वरुणाय नमः। इदं वरुणाय स्वाहा। 13. - ऊँ वास्तोस्पतये नमः। इदं वास्तोस्पतये स्वाहा। 14. - ऊँ पंचलोकपालदेवताभ्यो नमः। इदं तेभ्यः स्वाहा। 15. - ऊँ क्षीमाधिपतये नमः इदं क्षीमाधिपतये स्वाहा। 16. - ऊँ इन्द्रादिदश-दिवपालदेवताभ्यो नमः। इदं तेभ्यः स्वाहा। ऊँ ग्रामदेवताभ्यो नमः इदं तेभ्यः स्वाहा। ऊँ कुलदेवताभ्यो नमः। इदं तेभ्यः स्वाहा। ऊँ इष्टदेवताभ्यो नमः। इदं तेभ्यः स्वाहा।

फिर शेष शाकला से कथा के प्रधान देवता श्री सत्यनारायण भगवान को 8 या 28 या 108 आहुतियाँ देवे। फिर पान पर देवता के प्रार्थनात्मक मन्त्र या श्लोक का पाठ कर पूर्णाहुति करे और नहीं तो 'कर्पूरगौरं' को पढ़े। आरती के बाद यजमान को हवन की विभूति लगावे। रक्षारूप बौधे। यान्त्र देवगणाः सर्वे इत्यसे समाप्त करें।

श्रीसत्यनारायण जी की आरती

जय लक्ष्मी रमणा श्रीजयलक्ष्मी रमणा । सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा । जय० ॥१॥
रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि छाजे । नारद करत निराजन घण्टा ध्वनि बाजे । जय० ॥२॥
प्रकट भये कलिकारण द्विजको दरश दियो । बूढ़ो ब्राह्मण बन के कञ्चन महल कियो । जय० ॥३॥
दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी । चन्द्रचूड़ एक राजा उन की विपति हरी । जय० ॥४॥
वैश्य-मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी । सो फल पायो प्रभुजी की स्तुति कीनी । जय० ॥५॥
भाव भक्ति के कारण छिन-छिन रूप धर्यो । श्रद्धा धारण कीनी तिनके काज कर्यो । जय० ॥६॥
रवाल-बाल संग राजा वन में भक्ति करी । मनवांछित फल दीन्यो दीनदयाल हरी । जय० ॥७॥
चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा । धूप-दीप तुलसी से राजी सतदेवा । जय० ॥८॥
सत्यनारायणजी की आरति जो गावे । तन-मन-सुख-सम्पति मनवांछित फल पावे । जय० ॥९॥

पूजन सामग्री - रोली, नारा, अबीर-बुक्का, मेंहदी की बुकनी, हरदी की बुकनी, सुरूआरी का बीया, सर्वौषधि, पञ्चरत्न की पुड़िया, रत्नचपल्लव, सप्तपुत्तिका, सप्तधान्य, सुवर्ण का टुकड़ा ५, कलश ताँबे का ५, ढँकना ताँबे का ५, माला, फूल, तुलसी, दूध, दही, घृत, शहद, चीनी, गेहूँ का आटा, चावल, केशर का चन्दन, धोती १, जनेऊ जोड़ा २, धूपबत्ती, दीपबत्ती १५, कपूर, पेड़ा आधा किलो, बत्तासा आधा किलो, ऋतुफल, पान, सोपाड़ी ५०, नारियल मलमल २ मीटर, चौकी १, प्रतिमा सोने की (विष्णु या शालिग्राम की) केले का खम्भा, ३ बड़ा तोरण, हैंडिया, कसोरा, दीया, वेदी के लिए बालू, शाकला, पलाश की लकड़ी, गङ्गाजल ।

ॐ शान्तिः

ॐ शान्तिः

ॐ शान्तिः

धरम न दूसर सत्य समाना ॥ आगम निगम पुरान बखाना ॥

सत्य ही नारायण है